

मोशेश, परमेश्वरक सेवक

याकूबक परिवार भौत बहुं

(निर्गमन १:६-१०)

यैक बाद यूसुफँक सब भै और उनार पीढ़ीक सब मैंस लै मरि ग्याय। पर उनार वंशज भौत फलीं-फूलीं और ताकतबर हई, यौ देखिबेर मिस्त्रियों कै यस लागौ कि इस्मायली हमु हबेर जादा है गेई।¹

फिर यूसुफँक मरणक भौत सालोंक बाद मिस्त्र देश मिं एक यस राँज बणौ, जकै यूसुफँक बारि मिं के लै मालुम नि छी। वील आपण जनता धैं कौ, "देखो, इस्मायली मैंस भौत जादे है गेई। उं हमु हबेर जादे ताकतबर है जॉल! और जब हमार दुश्मण हमर दगाड़ लड़े करॉल, तब यौ हमर खिलाफ उनेरि मधत करणक बाद हमुमि राँज करॉल। यैक लिजी हम इनर दगाड़ चालाकिल काम करनू, जैल यौ नि पनपो।"

इस्मायलियोंक दुःख-मुशीबत

(निर्गमन १:११-२२)

यैक लिजी मिस्त्रियोंल इस्मायलियों कै आपण गुलाम बणैबेर उनुधैं राँजक लिजी पितोम और रामसेस नामक नगर जबरदस्ती बड़वा। पर जतुकै उं उनुकैं परेशान और दुःखी करनै गेई, उदुकै उं बढ़नै और फैलनै गेई। यैक लिजी मिस्त्री इस्मायलियों कै देखि भौतै डरण लार्गी। और उं इस्मायलियों धैं और लै जबरदस्ती जादे काम करूँछी। उनुल आपण लिजी ईट-गॉर और गॉडोंक सब काम जबरदस्ती करैबेर उनर जीवन दुःखी करि दे।

¹ यूसुफँक बौज्यू याकूबक दुसर नाम इस्मायल छी, यैक लिजी उनर वंशजों कै इस्मायली कूनी।

तब रॉजल द्वी स्वैनों कैं बुलवैबेर उनुकैं यौ हुकुम दे, "जब तुम इस्सायलियोंक नॉनतिनों कैं पैद करूणक लिजी जाला, तब अगर चेलि हृवेलि तो उकैं रुण दिया, लेकिन च्यल हृवल तब उकैं मारि दिया।" पर स्वै परमेश्वर कैं देखि डरछी। यैक लिजी उनुल रॉजक हुकुम टोडिबेर च्यालों कैं लै ज्यून रुण दे।

जब रॉजल यौ जाणौ, तब वील स्वैनों कैं बुलवैबेर उनुधैं पुछौ, "तुमुल यस किलै करौ? तुमुल इस्सायलियोंक च्यालों कैं किलै नि मार?" स्वैनोल रॉज कैं जबाब दे, "इस्सायली स्यैणि मिस्सी स्यैणियोंक चारि न्हैंतिन। उं भौत फुर्तिल हुनी और उं हमर पुजण है पैलियै नॉनतिनों कैं जनम दी दिनी।" किलैकि स्वै परमेश्वर देखि डरछी, यैक लिजी परमेश्वरल स्वैनोंक लिजी भल करौ और उनुकैं लै औलाद दे।

तब रॉजल मिस्सियों कैं हुकुम दे, "तुम इस्सायलियोंक सब नॉन पैद हईं च्यालों कैं गाड़ बगै दिया! लेकिन चेलियों कैं नि बगाया।"

एक खाश च्यलक जनम

(निर्गमन २: १-१०)

यौ बखत लेवी कुलकि एक इस्सायली स्यैणिल एक च्यल कैं जनम दिबेर वील तीन म्हैण तलक उकैं लुका। पर जब उ नॉनतिन कैं आइ नि लुकै सकि, तब वील एक टुपर बणा, और उमि डामर और लिस लगैबेर वीमि च्यल कैं धरौ। और उकैं नील नामक गाड़क किनॉर काँसक घाक बीच मि धरि दे। और उ च्यलक दिदि यौ देखणक लिजी दूर ठाँड़ है रैछी, कि वीक भैक दगाड़ के हुं।

थवाड़ देर बाद वां रॉजकि चेलि नाणक लिजी ऐ। वीक दगड़ी गाड़क किनॉर मि घुमणाछी। तब रॉजकि चेलिल कांसोंक बीच मि यौ टुपर कैं देखिबेर आपण दगड़ी कैं यौ टुपर ल्युणक लिजी लगा। जब राजकुमारिल उकैं खोलिबेर चा, तब वील वीमि नान-नॉन च्यल देखौ। वील कौ, "उज्या, यां एक भौ छु!" यौ डाड़ मारणौ, यौ देखिबेर उकैं दया ऐ गेई। वील कौ, "यौ इस्सायली च्यल छु!" तब उ च्यलकि दिदिल रॉजकि चेलिक पास जैबेर उधैं कौ, "के मी तुमर लिजी एक जतकाइ स्यैणि कैं बुलै ल्यूं, जो यकैं आपण दूध पिलाओ?" वील कौ, "ठिक छु, झट्ट जा।" तब उ जैबेर आपणि इज कैं बुलै ल्यै। राजकुमारिल उधैं कौ, "यौ च्यल कैं लिबेर जाओ और म्यर लिजी यकैं आपण दूध पिलाओ। मी तुमुकैं यैक मजुरि द्यूलं।" तब उ स्यैणि आपण च्यल कैं घर ली गे।

और यौं भौक थ्वाड़ ठुल हुण पर वीक इजल उकैं लिजैबेर राजकुमारि कैं दी दे। और वील उकैं आपण च्यल मानि ले। वील कौ, "मील यकैं पाणि बे भ्यार निकालौ, यैक लिजी यैक नाम मोशेश छु।"²

मोशेश एक मिस्त्री कैं मारुं

(निर्गमन २:११-१५)

यैक थ्वाड़ सालोंक बाद, जब मोशेश जवान हौ, तब एक दिन उ आपण इस्त्रायली जातिक मैसों कैं भेटणक लिजी गो, और वील आपण भैंसों कैं भारि मुश्किल मिं देखौ। वील यौ लै देखौ कि एक मिस्त्री एक इस्त्रायली कैं मारणौ। तब मोशेशल इथां-उथां चैबेर उ मिस्त्री मैसक खून करिबेर बउ मिं खॉड़ हाल दे।

जब दुसौर दिन मोशेश फिर उनर पास गो, तब वील द्वी इस्त्रायली मैसों कैं झागड़ करन देखौ। वील कसूरदार धैं कौ, "तु आपणै भै कैं किलै मारणैछै?" लेकिन उ मैसल जबाब दे, "तुमुकैं हमुमिं हुकुम चलूणी और न्याय करणी कैल ठैरा? के तुम मिकैं लै मारण चांछा, जसिकै तुमुल उ मिस्त्री मैस कैं ठन्ड धरौ?" यौ सुणिबेर मोशेश डरि गोय और वील सोचौ कि जरूड़ सब मैसों कैं यौ बातक पत्त चल गो!

जब रॉजल लै यौ बात सुणी, तब वील मोशेश कैं मारणक लिजी उकैं खोजौ। लेकिन उ मिस बे भाजिबेर मिध्यान देश नहै गोय।

मोशेश मिध्यान देश मिं

(निर्गमन २:१६-२५)

जब एक दिन बॉट मिं मोशेश एक कुंवक पास बैठि रौछी, तब मिध्यान देशक पुरोहितोंक सात चेली पाणि भरणक लिजी वां आई। तब वां थ्वाड़ गोरुक ग्वावोंल ऐबेर उनुकैं धांक मारिबेर कौ, "उथकै जाओ! पैली हम भरुल।" यौ देखिबेर मोशेशल उं चेलियोंकि मधत करी, और वील उनार भेड़-बकाँरोंक लिजी लै पाणि भरौ।

फिर चेली आपण बौज्यूक पास आई, जैक नाम यित्रो छी। वील पुछौ, "चेलियो, आज तुम इदुक जल्दी कसिक आछा?"³ उनुल कौ, "एक मिस्त्री मैसल ग्वावों कैं रोकिबेर हमर लिजी पाणि भरौ, और हमार जानवरों कैं लै

² "मोशेश", एक इब्रानी शब्दक उच्चारण जस छु जैक अर्थ छु "निकलण"।

³ यित्रो - उकैं कभै रूएल लै कूनी।

"प्यवा!" तब वील आपण चेलियों धैं पुछौ, "उ मैंस कां छु? तुम उकैं छोड़िबेर किलै आछा? उकैं बुलैबेर ल्याओ, उ हमर दगाड़ खॉल।" तब उं उकैं बुलै ल्याई।

इसिक मोशेश उनरै दगाड़ रुण लागौ, और वीक थ्वाड़ बखतक बाद वील मोशेशक दगाड़ आपण चेलि सिप्पोराक ब्या करि दे। फिर उनर एक च्यल हौ और मोशेशल कौ, "मी दुसर देश मिं परदेशि छु। यैक लिजी यैक नाम गेर्शोम छु, जैक अर्थ छु "परदेशि"।"

भौत सालोंक बाद मिस देशक रॉज मरि गोय, लेकिन यैक बाद नई रॉजक राज मिं लै इस्मायलियोंकि हालत मिं के फरक नि हौय। तब उनुल डाड़ मार-मारिबेर परमेश्वर कैं पुकारौ, "हे ईश्वर, हमेरि मधत करो!" परमेश्वरल उनेरि पुकार सुणी। और आपण वैद कैं जो वील इस्मायलियोंक पुरखा इब्राहीम, इसहाक और याकूबक दगाड़ करि रॉखछी, उ वैदक कारण परमेश्वर कैं उनुमिं दया ऐ।

परमेश्वर मोशेश कैं दर्शन दिणी

(निर्गमन ३: १-२०)

मिध्यान देश मिं मोशेश आपण सौरक भेड़-बकाँरों कैं चरूणक लिजी एक दिन रेगिस्तानक पार ली जाणौछी। जब उ परमेश्वरक सिनै डॉनक पास आ, तब प्रभु परमेश्वरल मोशेश कैं आपण दर्शन इसिक दे, कि वां आँगल एक बुज तो जलुणौ, पर उ भसम नि हुण्य। यैक लिजी मोशेशल आपण मन मिं कौ, "मी वां जैबेर यौ अणकसै बात कैं देखनू कि बुज भसम किलै नि हुण्य?" तब परमेश्वरल बुजक बीच बे मोशेश कैं धात लगै, "मोशेश, मोशेश!" मोशेशल कौ, "तु कों छै?"

परमेश्वरल कौ, "नजिक नि आ पर आपण ज्वत ख्वल, किलैकि जो जाँग मिं तु ठाड़ है रौछै, उ पवित्र जाँग छु। मी त्यार पुरखा इब्राहीम, इसहाक और याकूबक परमेश्वर छूं।" तब मोशेशल आपण मूख ढक ले, किलैकि उ परमेश्वर कैं देखण मिं डरछी।

परमेश्वरल कौ, "मील आपण मैसोंक जो मिस मिं छन उनार दुःख-तकलीफ देखि रॉखी, और उनुधैं जबरन काम करूणियोंकि शिकैत लै सुणि है। यैक लिजी मी उनुकैं यौ देश बे निकालिबेर एक भलौ-भल, ठुल देश मिं ली जाणक लिजी ऐ रयूं, जां उनुकैं कैं के चीजक कमी नि हो। आँब तु जा,

मी तुकैं रॉजक पास भेजनू कि तु म्यार मैसों कै मिस्र देश बे भ्यार निकालि सको।"

लेकिन मोशेशल परमेश्वर धैं कौ, "मी को छूं, जो रॉजक पास जैबेर इस्मायलियों कै मिस्र देश बे भ्यार निकालि ल्यूं?" लेकिन परमेश्वरल कौ, "मी त्यर दगाड़ छूं। यौ बुजक जलण यौ बातक सबूत छु कि जब तु म्यार मैसों कै मिस्र देश बे निकालि ल्या ले, तब यौ जाँग मिं तु मेरि अराधना करलै।"

यौ सुणिबेर मोशेशल परमेश्वर धैं कौ, "अगर मी इस्मायली मैसोंक पास जैबेर उनुधैं कूं, कि मिकै तुमर परमेश्वरल जैक अराधना तुमार पुरखा करछी, यां भेजि रॉखौ, तब उं मिधैं पुछॉल कि वीक नाम के छु। तब मी उनुकैं के बतूल?" परमेश्वरल कौ, "तु उनुकैं बताये, कि जनर नाम छु, "मी छूं," उनुल मिकै तुमर पास भेजि रॉखौ। और उनर यौ नाम हमेशाक लिजी छु, किलैकि जो उं छन, हमेशा वीं छन। यौ त्यार पुरखा इब्राहीम, इसहाक और याकूबक परमेश्वर छन।

ऑब जा, और इस्मायली मैसोंक पथानों कै जाँम करिबेर उनुधैं कये, "तुमर पुरखोंक परमेश्वरल मिकै दर्शन दिबेर कौ, कि मील तुमेरि सुधि ली रॉखी और जो मिस्र देश मिं तुमर दगाड़ करी जाणौ उकैं देखि रॉखौ। मी वैद करनू कि तुमुकैं मिस्र देश बे निकालिबेर एक यस देश मिं ली जानू, जां तुमुकैं

के चीजक कमी नि हवेलि।" इस्मायली तेरि बात मानॉल। तब तु और इस्मायलियोंक पथान मिस्र देशक रॉजक पास जाया। तुम उधैं कया कि इस्मायलियोंक प्रभु परमेश्वर हमुकैं मिलौ। ऑब किरपा करिबेर तुम हमुकैं रेगिस्तान मिं तीन दिनक सफर मिं यैक लिजी जाण दे कि हम आपण



बुज जलुणौ पर भसम नी हुणौय

प्रभुक लिजी भेट-बलिदान चढ़ै सकुं। लेकिन मी जाणनू कि जब तलक मिस्रक रॉज म्यर सामर्थल लाचार नि हवल, तब तलक उ तुमुकैं नि जाण दियो। लेकिन मी आपण सामर्थल अद्भुत काम करिबेर उकैं भौत परेशान करुंल। और वीक बाद उ तुमुकैं जाण द्यल।"

मोशेशक मंशा जाणकि नहैं

(निर्गमन ४: १-१७)

तब मोशेशल जबाब दे, "अगर उं मेरि बात मि भरौस नि करिबेर कौल कि प्रभु परमेश्वरल तुकैं दर्शन नि दी रॉख, तब मी के करुल?" यौ सुणिबेर प्रभु परमेश्वरल कौ, "त्यर हात मिं तौ के छु?" वील कौ, "म्यर जाठ।" परमेश्वरल कौ, "तकैं भिं मिं खेड़ि दे।" और भिं मिं खेड़िन तलकै उ एक स्याप बणि गोय, और यौ अणकसै कारनाम देखिबेर मोशेश उलबे भॉजण लागौ। फिर प्रभु परमेश्वरल मोशेश धैं कौ, "तु आपण हातल तैक पुछौड़ कैं थमा।" जब मोशेशल वीक पुछौड़ थमा, तब उ फिर जाठ बणि गोय। परमेश्वरल कौ, "जब तु उनुकैं यौ कारनाम दिखालै, तब उं सब मैंसों कैं भरौस है जॉल कि तुकैं प्रभु परमेश्वरल दर्शन दी रॉखौ।"

फिर प्रभु परमेश्वरल उधैं यौ लै कौ, "आपण हात आपण कुर्त भितेर खितिबेर उकैं ढक ले।" जब वील यौ करिबेर हात भ्यार निकालौ, तब वीक हात मिं सफेद कोड़ है रोछि। वीक बाद उनुल कौ, "आपण हात फिर आपण कुर्त भितेर खितिबेर ढक ले।" यौ करणक बाद मोशेशक हात बिल्कुल भल है गोय। परमेश्वरल मोशेश कैं बता, "तु यस्सै इसायलियोंक सामण लै करिये। अगर उं जांठक स्यापवॉल निशाण देखिबेर तेरि बात मि भरौस नि करला, तब यौ कोड़वॉल दुसर निशाण कैं देखिबेर जरूड़ भरौस करॉल। और अगर उं यौं द्विवै निशाणों कैं देखिबेर लै भरौस नि करॉल, तब तु यस करिये कि नील गाड़क थ्वाड़ पाणि लिबेर उकैं सुकी धरति मिं खितये और उ खून बणि जॉल।"

फिर लै मोशेशल प्रभु परमेश्वर धैं कौ, "हे प्रभु, मिकै नि भेजिया, किलैकि मी भलिक बात लै नि करि सकन।" तब प्रभु परमेश्वरल उधैं कौ, "मैंसक खाप कैल बणै? मैंस कैं लॉट-कॉल, कॉण या देखि सकणी, मी प्रभु परमेश्वर बणूनू। आँब जा, मी त्यर दगाड़ रैबेर तुकैं बतूनै रूल कि तुकैं के-के कूण छु।"

लेकिन मोशेशल कौ, "हे प्रभु, तुम मि पर दया करिबेर म्यर बदाव क्वे दुसर मैंस कैं भेजि दियो!"

यौ सुणिबेर प्रभु परमेश्वर कैं मोशेश मिं रीश ऐ। उनुल कौ, "त्यर दॉद हारून जो छु, उ बुलाण मिं चंठ छु। यैक लिजी देख, उ त्यर दगाड़ भेट करणक लिजी बॉट लागि गो। और तुकैं भेटिबेर मन-मनै खुशि हूवल। तुकैं यौं सब बात उकैं समझूण छु, और मी तुम द्विनोंक बाणिक दगाड़ रूल, और

तुमुकैं सिखूनै रूल कि के-के करण छु। उ त्यर बदाव मैसों धैं बात करल। आँब तु यौ जांठ कैं आपण हात मिं ली ले, जैल तु मैसों कैं यौ निशाण दिखै सकलै।"

मोशेश मिस्स वापिस जाणौ

(निर्गमन ४:१८-३१)

वीक बाद मोशेशल आपण सौरक पास वापिस जैबेर कौ, "तुम मिकैं दया करिबेर मिस्स मिं आपण मैसोंक पास जाण दियो, जैल मी देखि सकुं कि उं आइ तलक ज्यून छन या न्हैंतिन।" तब वीक सौरल कौ, "भली कै जा।"

और प्रभु परमेश्वरल मोशेश धैं यौ लै कौ, "तु ऐरामल वापिस न्है जा, किलैकि जो मैस तुकैं मारण चांछी, उं सबासब मरि गोई।" तब मोशेश आपण हात मिं उ जांठ, आपणि स्यैणि और च्यालों कैं गधों मिं बैठैबेर मिस देशक तरफ बॉट लागौ।

दुसर तरफ प्रभु परमेश्वरल हारून धैं कौ, "तु मोशेशक दगाड़ भेट करणक लिजी रेगिस्तान प्रदेश मिं जा।" और वील जैबेर परमेश्वरक डॉन मिं मोशेश कैं भेटिबेर खुशील अडाव खितौ।

तब मोशेशल हारून कैं बता कि प्रभु परमेश्वरल मिकैं यां यैक लिजी भेजि राँखौ, कि मी तुकैं उ बात बतै सकुं और उं सब निशाण लै दिखै सकुं जो परमेश्वरल हमुधैं इस्मायली पधानों कैं दिखूणक लिजी कै राँखौ।

यैक बाद मोशेश और हारूनल मिस देश मिं ऐबेर इस्मायलियोंक सब पधानों कैं जॉम करौ। और हारूनल उं सब बात बताई जो-जो प्रभु परमेश्वरल मोशेश धैं कै राँखछी। और मोशेशल मैसोंक सामण उं निशाण लै दिखाई। यौ सब देखिबेर मैसोंल उनेरि बात मिं भरौस करौ। उनुल यौ सुणिबेर कि प्रभु परमेश्वर हमुकैं छुडूणिवॉल छन, चौड़ हबेर प्रभु परमेश्वर कैं धन्यवाद दे।

मोशेश और हारून राँजक सामण

(निर्गमन ५:१-५)

यैक बाद मोशेश और हारूनल राँजक पास जैबेर कौ, "इस्मायलियोंक प्रभु परमेश्वर यस कूनी कि म्यार मैसों कैं रेगिस्तान मिं जाण दे, जैल उं म्यर लिजी वां त्यार मनै सको!" यौ सुणिबेर राँजल उनुधैं पुछौ, "यौ प्रभु को छु, जैक बात मानिबेर मी इस्मायलियों कैं जाण दूयूं? मी यौ प्रभु कैं नि पछ्याणन और मी इस्मायलियों कैं नि जाण दूयूं।" मोशेश और हारूनल

फिर कौ, "इसायलियोंक प्रभु परमेश्वरल हमुकैं दर्शन दे। यैक लिजी हमुकैं रेगिस्तान मिं तीन दिनक बॉट मिं जाण दे, कि हम आपण प्रभु परमेश्वरक लिजी भेट-बलिदान चढ़ै सकूँ। नतेरि कैं यस नि हो कि उं हमुमि॑ महामारि फैलाओ या तलवारल कटवैबेर नांश करि दियो।" तब रॉजल मोशेश और हारून धैं कौ, "ओइ, तुम यौं मैसों कैं आपण काम किलै नि करण दिणया? तुम लोग जाओ, आपण आपण काम करो!"

और लै परेशानी

(निर्गमन ५:६-२१)

यैक लिजी उं दिनै बे रॉजल आपण मुखियाओं कैं यौ हुकम दे, "जो चिल तुम इसायलियों कैं ईंट बणूणक लिजी दिंछिया, ऐल बे झान दिया, किलैकि उं आफी चिल जॉम करॉल। और जदुक ईंट उं आज तलक बणूछी, तुम उदुकै आइ लै बणवाया, ईंटोंक गिनती कतई कम झान करिया। किलैकि उं कामचोर छन, यैक लिजी उं चिलैबेर कूँनी कि आओ, हम सब जैबेर आपण परमेश्वर कैं भेट चढूनूँ। यैक लिजी उनुधैं और लै जादे कष्टकारि काम करवाओ, जैल उं यौ मोशेश और हारूनक झुट बातों मिं भरौस नि करो।"

तब रॉजक मुखियावोंल भ्यार जैबेर इसायलियों धैं कौ, "आज बे रॉजल तुमुकैं ईंट बणूणक लिजी चिल नि दियो कै रॉखौ। यैक लिजी तुम जाओ और जां कैं लै तुमुकैं चिल मिलल वांबे लिबेर आओ, पर तुमुकैं उदुकै ईंट बणूण पड़ॉल, जदुक तुम रोज बणूछा।"

तब इसायली मैस चिल जॉम करणक लिजी पुर मिस्त देश मिं फैल ग्याय। लेकिन सब मुखिया कामदारों धैं हर बखत कच-कचाट करछी कि तुम आज लै उदुकै ईंट बणाओ, जदुक पैली बणूछिया! और उनुल इसायली मुनशियों कै मारि-मारिबेर कौ, "तुमुल जदुक ईंट बणवूण छी, उदुक किलै नि बणवूणया?"

तब इसायलियोंक मुनशियोंल रॉजक पास जैबेर बिनती करिबेर कौ, "तुम आपण सेवकोंक दगाड़ यस बरताव किलै करणाछा? तुमार मुखिया हमुकैं चिल तो दिण नि राय, और फिर लै कूणई, "ईंट बणाओ, ईंट बणाओ!" कसिक बणूनूँ? और उल्ट कै हमुकै मारणई, जबकि कसूर तुमार मुखियावोंक छु।" लेकिन रॉजल कौ, "तुम कामचोर और अलीत छा, यैक लिजी तुम कूंछा कि हमुकै जाण दे कि हम आपण प्रभु परमेश्वर कै भेट चढूँ। जादे बकवास नि करो! चाहे के लै हो, पर तुमुकै उदुकै ईंट बणैबेर दिण पड़ॉल, बस।"

जब इस्मायलियोंके मुनशियोंधैं कई गोय कि तुमुकैं रोजक गिनती मिं ईंट बणूण छन, तब उनुकैं लागौ कि उनार और लै जादे खराब दिन ऐ गेई। रॉजक पास बे भ्यार ऐबेर उनुल मोशेश और हारूनक दगाड़ भेट करी, जो उनर इंतजार मिं भ्यार छी। तब इस्मायली मुनशियोंल उनुधैं कौ, "प्रभु परमेश्वर तुमुकैं सजा दियो, किलैकि यौ सब मुशीबतक जड़ तुम द्विवै छा! ऑब रॉज हमुधैं नफरत करुं, और मारण चां। और उकैं यौ करणक मौक तुमुल दे!"

परमेश्वर मोशेशक हिम्मत बढूंणी

(निर्गमन ५:२२-२३, ६:१-६)

तब मोशेशल वापिस ऐबेर प्रभु परमेश्वर धैं कौ, "हे म्यर परमेश्वर, तुमुल मिकैं यां किलै भेजौ? और यौ मैसोंक लिजी तुमुल लै इदुक नक किलै करौ? देखो, जब बे मील तुमर नामल रॉज धैं बात करी, तब बे वील इनर दगाड़ और लै खराब बर्ताव करौ। और तुमुल लै इनर लिजी के भल नि कर!"

फिर प्रभु परमेश्वरल मोशेश धैं कौ, "ऑब तु देख, कि मी रॉज कैं आपण कॉस-कॉस ठुल काम दिखून् जैल रॉज परेशान हबेर इस्मायलियों कैं छोड़ि द्यल।"

परमेश्वरल मोशेश धैं यौ लै कौ, "मी प्रभु परमेश्वर छूं। इब्राहीम, इसहाक और याकूबल देखछी कि मी सबों है ठुल परमेश्वर छूं, लेकिन उनुल मेरि सारि सामर्थ नि देखि राखि।⁴ मील उनर दगाड़ यौ वैद करौ कि मी तुमुकैं कनान देश हमेशाक लिजी द्यूल, जां ऐल तुम परदेशियोंक चारि रुणाछा।

ऐल मी इस्मायलियोंक खराब दॉश देखिबेर आपण उ वैद कैं पुर करुल। यैक लिजी तु जैबेर इस्मायलियोंधैं यस कये कि मी आपण महान-सामर्थल मिसियोंकैं भारि सजा दिबेर तुमुकैं उनर हात बे छुडूल। मी तुमुकैं अपणूल और तुमुकैं याद हवल कि मी तुमर प्रभु परमेश्वर छूं, जो तुमुकैं मिसियों बे छुड़ै लायूं। मी तुमुकैं उ देश मिं ली जूल, जो देश दिणक वैद मील तुमर पुरखा इब्राहीम, इसहाक और याकूबक दगाड़ करि रॉखछी। उ मी तुमुकैं द्यूल, उमिं तुमर कब्ज हवल। किलैकि मी प्रभु परमेश्वर छूं।"

मोशेशल यौ सब बात इस्मायलियोंकैं बतै, लेकिन उनुल निराश हबेर वीक बात मिं भरौस नि कर।

⁴ यां इब्रानी भाषा मिं लेखी छु, "मील इब्राहीम, इसहाक और याकूब कैं सबों है ठुल परमेश्वरक रूप मिं आपण दर्शन दे, लेकिन मील उनुकैं आपण नाम, "मी छूं" फिर लै नि बताय।"

मोशेश और हारून दुबार रॉजक सामण

(निर्गमन ६: १०-११, ७: १०-१३)

तब प्रभु परमेश्वरल मोशेश थैं फिर कौ, "तु रॉजक पास जैबेर उथैं यौ कये, कि तु आपण देश बे इस्नायलियों कैं जाण दे। जब रॉज तुमुधैं कौल कि क्वे चमतकारक काम दिखाओ, तब तु हारून थैं कये कि आपण जांठ रॉजक सामण खेड़ि दे, और उ स्याप बणि जॉल।"

जस प्रभु परमेश्वरल उनुकैं हुकुम दे, उनुल उस्सै करौ। और जब हारूनल रॉज और वीक दरबारियोंक सामण आपण जांठ खेड़ौ, तब उ स्याप बणि गोय। लेकिन रॉजल मिस्स देशॉक सब तांत्रिकों कैं बुलवा, और उनुल लै तंत्र-मंत्रल आपण जांठोंल उस्सै स्याप बणै देई। लेकिन हारूनक स्यापल सब तांत्रिकोंक स्यापों कैं नेई ले।

पर जस प्रभु परमेश्वरल कै रॉखछी, उस्सै रॉजक मन निठूर है गोय, और वील उनर बात लै नि सुणि।

पैल सजा - पाणि खून बणुं

(निर्गमन ७: १४-२४)

प्रभु परमेश्वरल मोशेश थैं कौ, "रॉजक मन आइ निठूर है गो, और उ म्यार मैंसों कै नि जाण दिणय। यैक लिजी जब रॉज रात्ति पर गाड़क तरफ आल, तब तु आपण हात मिं जांठ लिबेर वीक सामण भेट करणक लिजी जाये। और उथैं यौ कये कि इस्नायलियोंक प्रभु परमेश्वरल तुधैं यस कै रॉखछी कि म्यार मैंसों कैं रेगिस्तान मिं जाण दे, जैल उं मेरि अराधना करि सको! लेकिन त्वील ऐल तलक उनेरि बात नि मानि। ऑब तु जाणि ले कि उं प्रभु छन। मी आपण जांठल नील गाड़ मिं मारूल और वीक सौर पाणि खून बणि जॉल, जैल गाड़ॉक सब मॉछ मरि जॉल और वां बे सड़ैन बाश आलि, और मिस्सॉक क्वे लै मैंस उ गाड़क पाणि नि पी सकॉल।" और प्रभु परमेश्वरल मोशेश थैं यौ लै कौ, "हारून थैं कये कि जांठ लिबेर मिस्स देशक सब धॉर-नौव, छ्वाय, गाड़-गध्यरोंक तरफ उठा। और उनर सब पाणि लै खून बणि जॉल।"

जस प्रभु परमेश्वरल मोशेश और हारून कैं हुकुम दे, उनुल उस्सै करौ। उनुल रॉज और वीक दरबारियोंक सामण आपण जांठल नील गाड़ मिं मारौ, जैल उ पुर गाड़क पाणि खून बणि गोय। और उ गाड़क सब मॉछ मरि ग्याय।

वीक पाणि बे सड़ैन बाश उण लागी, यैक लिजी मैंसोंल नील गाड़क पाणि नि पी सक। वांक सॉर पाणि खुन बणि गोछी।

लेकिन फिर मिस्र देशक तांत्रिकोंल लै आपण तंत्र-मंत्रल यस्सै करि दे। यौ देखिबेर रॉजक मन पैली है लै जादे निठूर है गोय। यैक लिजी वील मोशेश और हारूनकि बात नि मानि। और मूळ फेरिबेर, आपण महल मिं जानै रौ।

लेकिन मिस्रांक मैंसोंल नील गाड़क इनार-किनार पाणि निकालणक लिजी खोदौ, किलैकि कैं साफ पाणि नि छी।

दुसेरि सजा - भिकॉन

(निर्गमन :- १-१५)

पाणिक खुन बणणक सात दिनोंक बाद प्रभु परमेश्वरल मोशेश धैं कौ, "रॉजक पास जैबेर कये कि प्रभु यस कूनी, कि तु म्यार मैंसों कैं मेरि अराधना करणक लिजी जाण दे! अगर उ तेरि बात नि मानल तब मी यौ देश मिं छुड़ भिकॉने-भिकॉन भेजि द्यूल। और नील गाड़ मिं इदुक भिकॉन हृवाल, कि उं भ्यार ऐबेर रॉजक महल मिं, वीक खन मिं और वीक बिसाण मिं लै ऐ जॉल। और उं वीक दरबारियोंक, वीक सब मैंसोंक घरों मिं, उनार भॉन-कुणों मिं लै, सब जॉग पुजि जॉल। और भिकॉन रॉज और सब मिस्रांक मैंसों मिं लै ऐ जॉल।"

तब प्रभु परमेश्वरल मोशेश कैं हुकुम दिबेर कौ, "तु हारून धैं कये कि आपण जांठ कैं गाड़, नहैर और झीलक पाणि मिं उठा, जैल वांक सब भिकॉन मिस्र देश मिं चढ़ आल।" फिर हारूनल उस्सै करौ और पुर देश मिं भिकॉने-भिकॉन है ग्याय। लेकिन रॉजक सामण वीक तांत्रिकोंल लै आपण तंत्र-मंत्रल यस्सै करिबेर दिखै दे।

तब रॉजल मोशेश और हारून कैं बुलवैबेर कौ, "तुम प्रभु परमेश्वर धैं बिनती करो कि उं भिकॉनों कैं यांबे दूर करि दियो। और तब मी तुम सबों कैं प्रभु परमेश्वर कैं भेट चढूणक लिजी जाण द्यूल।"

मोशेशल रॉज धैं कौ, "मी तुमर लिजी प्रभु परमेश्वर धैं बिनती कब करूं, जैल केवल उं भिकॉन बचो जो नील गाड़ मिं छन?" रॉजल कौ, "भोव।" तब मोशेशल कौ, "त्यर बचनक जस हृवल, जैल तु जाणि जालै कि हमर प्रभु परमेश्वरक जस और कवे न्हैं।"

तब मोशेश और हारूनल दुसर दिन प्रभु परमेश्वर धैं उं भिकॉनों कैं हटूणक लिजी जोर दिबेर बिनती करी। और प्रभु परमेश्वरल मोशेशक बिनती

सुणिबेर सब भिकाँनों कै मारि दें, और केवल उं भिकाँनों कै छोड़ौ जो नील गाड़ मिं छी। मैसोंल उं सब मरी भिकाँनों कै जॉम करिबेर उनर थुपुड़ लगे दे। और उनेरि सड़ैन बाश पुर देश मिं फैल गेई।

लेकिन जब रॉजल देखौ कि आँब यौ आफत टलि गे, तब जस प्रभु परमेश्वरल कै रॉखछी वील आपण मन फिर निठूर करि ले, और इस्मायलियों कै वाबे नि जाण देय।



मिस मि भिकाँने-भिकाँन

तिसरि सजा - मच्छर

(निर्गमन दः १६-१६)

यैक बाद प्रभु परमेश्वरल फिर मोशेश धैं कौ, "हारून धैं कये कि आपण जांठ कै धरतिक मस्यण धूल मिं मार, जैल उ सारि धूलल मिस देश मिं मच्छर बणि जाओ।"

तब उनुल यस्सै करौ और सॉर देशक धूल मैस और जानवरों मिं मच्छर बणिबेर लागि गेई। यौ देखिबेर तांत्रिकोंल लै आपण तंत्र-मंत्रल उस्सै करणक कोशिश करी, पर नि करि सक।

तब तांत्रिकोंल रॉज कै बता, "यौ काम परमेश्वरक छु!" लेकिन जस प्रभु परमेश्वरल के रॉखछी रॉजक मन निठूर बणियै रौ और वील मोशेश और हारूनकि बात नि मानि।

चौथं सजा - डांस

(निर्गमन दः २०-३२)

तब प्रभु परमेश्वरल मोशेश धैं कौ, "रातै उठिबेर जस्सै रॉज नील गाड़क तरफ जॉल, उस्सै वीक सामण जैबेर कये, "प्रभु परमेश्वर यस कूणी कि म्पार मैसों कै मेरि अराधना करणक लिजी किलै नि जाण दिणयै। अगर तु उनुकै नि जाण दूयलै, तब भोव मी तुमार घरों मिं डांसक दल भेजुल। और सारि धरति मिं डांसै-डांस है जॉल।⁵

⁵ डांस एक मौख छु, जो जानवर और मैस सबों कै चटकूं।

छन, वां एक लै डांस नि जाओ, जैल तुम समझि जाला कि मी यौ देश मिं
लै प्रभु छूँ!"

तब दुसर दिन प्रभु परमेश्वरल उस्सै करौ और रॉजक घर और वीक सब
दरबारियोंक घरों मिं डांसोंक दलै-दल ऐ ग्याय, और सब मिस्त्री इटुक परेशान
है ग्याय कि उनर देश बर्बाद हुण लागौ।

तब रॉजल मोशेश और हारून कैं बुलवैबेर कौ, "तुम आपण परमेश्वरक
लिजी भेट यौ देश मिं चढ़ै लियो!" लेकिन मोशेशल कौ, "यस करण ठिक नहै,
किलैकि हम आपण प्रभु परमेश्वर कैं जो भेट-बलिदान चढूंल, उकै मिस्त्री
मैंस ठिक नि समझन। और अगर हम उनर सामण यौ काम करूंल, तब उं
हमुकै नि घन्तराला? यैक लिजी हम प्रभु परमेश्वरक हुकुमक अनुसार उनुकै
रेगिस्तान मिं तीन दिनक सफर करणक बाद भेट चढूंल।"

तब रॉजल कौ, "मी तुमुकै प्रभु परमेश्वर कैं भेट चढूंणक लिजी जाण
द्यूंल, लेकिन तुम यांबे भौत जादे दूर झान जाया। और पैली हमर लिजी
बिनती करो।" तब मोशेशल कौ, "हम यांबे भ्यार जैबेर तुमर लिजी प्रभु
परमेश्वर धैं बिनती करूंल कि उं तुमुकै भोव डांसोंक परेशानी बे छोड़ि
दियो, पर यैक बाद तुम हमुकै जाण बे झान रोकिया!"

और फिर मोशेशल प्रभु परमेश्वर धैं बिनती करी। प्रभु परमेश्वरल वीक
बिनती सुणिबेर डांसों कैं यस गैब करौ कि फिर वां एक लै डांस नि रय।
लेकिन रॉजल यौ बारि लै जब देखौ कि यौ आफत टलि गे, आपण मन कैं
और लै निठूर करि ले, और उनुकै नि जाण देय।

पचूं सजा - जानवरोंक रोग

(निर्गमन ६: १-७)

यैक बाद मोशेशल फिर रॉजक पास जैबेर कौ, "इस्त्रायलियोंक परमेश्वर
यस कूणी, कि तु म्यार मैंसों कैं यांबे जाण दे कि उं मेरि अराधना करो। और
तु इनुकै नि जाण द्यलै तो? देखि लिये, त्यार गोरु-बकार, ऊंट-घ्वाड़, और
गधों मिं प्रभु परमेश्वरक तरफ बे भौत तुलि बिमारी आलि, जैल उं मरि
जॉल। पर इस्त्रायलियोंक क्वे लै जानवर नि मरो। पक्क, यौ काम मी भोव
करूंल।"

और दुसर दिन परमेश्वरल यस्सै करौ। मिस्त्रियोंक पालतु जानवर मरि
ग्याय, पर इस्त्रायलियोंक नि मर। तब रॉजल पत्त करवा कि इस्त्रायलियोंक

पालतु जानवर ज्यून छन या न्हैंतिन, और उकै पत्त चलौ कि उनार नि मरि राय। फिर लै उकै के फरक नि पड़, और वील इसायलियों कैं नि जाण देय।

छटूं सजा - पिल-फुफव

(निर्गमन ६:८-१२)

तब प्रभु परमेश्वरल मोशेश और हारून धैं कौ, "तुम चुल बे मुठि-भर छारूण लिबेर रॉजक सामण जैबेर उ छारूण कैं अगाशक तरफ छलकै दिया। तब उ मस्यणौ धूल बणिबेर पुर मिस्र देश मि फैल जॉल और वील पुर मिस्र देशक मैंस और जानवरोंक आड मिं पिल बणिबेर फुटॉल, और इनार रूप भौत खराब है जॉल।"

तब मोशेश और हारूनल उस्सै करौ, और मिस्रॉक सब मैंस और जानवरोंक आड मिं पिलै-पिल निकलि ग्याय। किलैकि तांत्रिकोंक आड मिं लै पिलै-पिल हैराछी, यैक लिजी उं मोशेशक सामण ठॉड़ नि रै सक। लेकिन प्रभु परमेश्वरल रॉजक दिल कैं निटूर बणै रॉखछी। यैक लिजी वील इसायलियों कैं नि जाण देय, जस प्रभु परमेश्वरल मोशेश कैं पैलियै बतै रॉखछी।

सतूं सजा - अत्था डाव

(निर्गमन ६:१३-३५)

फिर प्रभु परमेश्वरल मोशेश धैं कौ, "तु राति पर रॉजक पास जैबेर उधैं कये कि इसायलियोंक प्रभु परमेश्वर यस कूणौ कि म्यार मैंसों कैं जाण दे, ताकी उं मेरि अराधना करि सको। नतेरि प्रभु परमेश्वर और लै जादा आफत तु, त्यार दरबारी और तेरि सारि जनता मिं करॉल, जैल तुकैं पत्त चल जॉल कि उनर जस और क्वे न्हैं। अगर उं चांछी, तब ऐल तलक आपण ताकतल तुकैं और तेरि जनता कैं महामारिल मारि दिंछी! लेकिन उनुल तुमुकैं यैक लिजी ज्यून धरौ, कि तुम उनर सामर्थ देखो, और सारि धरति मिं उनर नाम जाणी जाओ। लेकिन तु ऐल तलक उनार मैंसोंक सामण विघ्न बणि रौछै, और उनुकैं नि जाण दिणयै। यैक लिजी उं भोव भौत जादे डाव बरसाल, जदुक मिस्र देश मिं आज तलक कभै नि पड़। ऑब तु आपण कामदारों कैं भेजिबेर जानवरों कैं भितेर बद्वै ले, किलैकि जो जानवर और मैंस भ्यार हवाल, उं यौ डावल मरि जॉल।"

तब रॉजक थ्वाड़ दरबारियोंले जो यौ सब सुणिबेर डरि राढ़ी, उनुल आपण दासों और जानवरों कैं भितेर धरौ। लेकिन औरोंले के ध्यान नि धर।

तब प्रभु परमेश्वरल मोशेश धैं कौ, "आपण हात अगाशक तरफ फैला, इसिक भौत जादे डाव बरसॉल।" तब मोशेशल आपण जांठ अगाशक तरफ उठा, और प्रभु परमेश्वरल घौड़ाट-भिड़ाटक दगाड़ अतथा डाव बरसै और बीच-बीच मिं भयंकर बजर लै पड़ीं। इदुक जादे डाव पड़ीं कि मिस्र देश मिं आज तलक कभै नि पड़। डावल उं सब मैस और जानवरों कैं जो भ्यार छी, खतम करि दे। यैक अलावा खेति-पाति, बोट-डाव सब बरबाद है पड़ीं। लेकिन गोशेन प्रदेश मिं, जां इसायली रुंछी, वां बिल्कुल सुख-शांति छी।

तब रॉजल मोशेश और हारून कैं बुलवैबेर कौ, "मील यौ बार पाप करि है। प्रभु परमेश्वर सांचि छु, लेकिन मी और मेरि जनता झुट छु।

यौ अत्था है गे। ऑब तुम प्रभु परमेश्वर धैं बिनती करो कि यौ सब थॉमी जाओ, तब मी तुमुकैं यांबे जाण द्यूंयूल।"

मोशेशल उधैं कौ, "जस्सै मी यौ नगर बे भ्यार जूल, उस्सै मी प्रभु परमेश्वरक तरफ आपण हात फैलुल, और तब चाल चमकण, डाव पड़न और बजर पण सब थॉमी जॉल, जैल तुमुकैं पत्त चल जॉल कि यौ धरति प्रभु परमेश्वरकि छु। लेकिन जां तलक मी जाणनू, तुम प्रभु परमेश्वर देखि नि डरना। फिर लै मी तुमर लिजी बिनती जरूड़ करुल।"

फिर मोशेश वां बे भ्यार गो, और वील प्रभु परमेश्वरक तरफ आपण हात फैला और डाव, बादोवक घौड़ाट-भिड़ाट, हाव-ब्याव, बजर और द्यो सब थॉमी गोय।

लेकिन जब रॉजल यौ सब ठिक-ठाक हई देखौ, तब वील फिर पाप करौ। उ और वीक दरबारियोंल आपण मन कैं और लै निठूर करि ले। जस प्रभु परमेश्वरल मोशेश कैं बतै रॉखछी, उनुल इसायलियों कैं नि जाण देय।

अठूं सजा - पिटडूक झंझट

(निर्गमन १०: १-२०)

तब प्रभु परमेश्वरल मोशेश धैं कौ, "रॉजक पास फिर जा, किलैकि मील उ और वीक दरबारियोंक मन कैं निठूर करौ, जैल मी उनर बीच मिं आपण यौ निशाणों कैं दिखै सकुल। और तुम आपण च्याल और नातियों कैं लै यौ बतै सको, कि मील मिस्त्रियोंक दगाड़ के-के करौ और उनर बीच मिं आपण कॉस-कॉस निशाण दिखाई। यैल तुम जाणि लियो कि मी प्रभु परमेश्वर छूं।"

तब मोशेश और हारूनल रॉजक पास आइ जैबेर कौ, "इसायलियोंक प्रभु परमेश्वर यस कुंनी, कि त कब तलक म्यर कौय नि मानलै? यौ हबेर म्यर कौय मानि ले, और म्यार मैंसों कैं मेरि अराधना करणक लिजी जाण दे। और अगर तु उनुकैं फिर लै रोकलै, तब देखिये, भोव मी त्यर देश मिं पिटडे-पिटड भेजि दयूंल। उं पुर धरति मिं इसिक बैठि जॉल कि धरति नजर नि आलि। और जो बोट-डाव और पात-पत्तेल डावक बाद बचि रईं, उनुकैं पिटड चट करि जॉल। और उं तुमर और सब मिस्थियोंक घरों मिं ऐ जॉल। और तुमर ऑम-बुबुल लै आज तलक यस कभै नि दृयख हूवल।"

यौ सुणिबेर रॉजक दरबारियोंल रॉज धैं कौ, "यौं इसायलियोंक कारणल हम बार-बार परेशान हुनै रुनू! यैक लिजी तुम इनुकैं आपण प्रभु परमेश्वरकि अराधना करणक लिजी जाण दियो, नतेरि हम सब बरबाद हैं जूल!"

तब रॉजल मोशेश और हारून धैं कौ, "तुम जैबेर आपण प्रभु परमेश्वरकि अराधना करि सकछा। लेकिन को-को जाला?" मोशेशल कौ, "हमार सब बुङ-बॉङ, च्याल-ब्वारि, नाति-नातिणी और हमार सब जानवर लै जॉल, किलैकि हमुल प्रभु परमेश्वरक लिजी त्यार मनूण छु।"

यौ सुणिबेर रॉजल रीशल कौ, "खबरदार तुमेरि मंशा ठिक न्हैं! मी तुम सबों कैं कभै नि जाण दयूंल। अगर तुमुल अराधना करणै छु, तब सिरफ तुम बैग मैंस जैबेर करो।" मौशेशल कौ, "ना, हम सब जूल!" लेकिन यौ सुणिबेर रॉजल उनुकैं भ्यार निकलवै दे।

फिर मोशेशल परमेश्वरक हुकुमक अनुसार आपण जांठ कैं उठा और प्रभु परमेश्वरल पुर दिन और रात भर पूरबक तरफ बे हाव चलै। और जब रात्ति है, तब हावक दगाड़ पिटड लै ऐ ग्याय, और पुर मिस देश पिटडोंल भर गोय। आज तलक इदुक पिटड न पैली आई और न ऑब कभै आल। और उनर बैठणल सारि धरति काई रडकि देखीणैछी। उनुल उ देशक सब फल-फूल जो लै बची छी, खै ले। इसिक सॉर देश मिं न तो क्वे फल बचौ न कैं हरी पात-पत्तेल।

तब रॉजल जल्दी मोशेश और हारून कैं बुलवैबेर उनुधैं कौ, "मील तुमर प्रभु परमेश्वर और तुमर खिलाफ लै पाप करि राँखौ। यैक लिजी बस तुम यौ बार आपण प्रभु परमेश्वर धैं बिनती करि दियो कि उं हमार पाप माफ करिबेर ऐल यौ आफत बे हमुकैं बचै लियो।"

और तब मोशेशल रॉजक पास बे भ्यार जैबेर बिनती करी। और प्रभु परमेश्वरल हावक दिशा बदेइबेर पश्चिम दिशाक तरफ बे चलै, जैल सब पिटड उड़ैबेर हावक दगाड़ लाल समुद्र मिं जै पड़ीं और मिस मिं एक लै

पिटड़ नि बच। लेकिन यैक बाद प्रभु परमेश्वरल रॉजक मन कैं और लै निठूर बणै दे। और वील इस्मायलियों कैं नि जाण देय।

नवूं सजा - अन्यार

(निर्गमन १०:२१-२७)

तब प्रभु परमेश्वरल मोशेश धैं कौ, "आपण हात कैं अगाशक तरफ उठा, जैल मिस्स देश मिं पट्ट अन्यार है जॉल।" और मोशेशल आपण हात अगाशक तरफ उठा और मिस्स देश मिं तीन दिन तलक भौतै अन्यार पट्ट रै। और मिस्सी मैंस तीन दिन तलक एक दुसर कैं नि देखि सक और क्वे आपण घर बे भ्यार लै नि जै सक। लेकिन इस्मायलियोंक जॉग मिं उज्याव छी।

तब रॉजल मोशेश कैं बुलैवैबेर कौ, "तुम जैबेर प्रभु परमेश्वरक लिजी अराधना करो और आपण स्यैणि और नॉनतिनों कैं लै ली जाया! पर आपण गोरु-बाकरों कैं यै छोड़ि जाया।" लेकिन मोशेशल कौ, "भेट-बलिदान चढूणक लिजी तो हमुकैं आपण जानवर ली जाण पड़ॉल। हमर वां पुजण पर प्रभु परमेश्वर बताल कि को-को जानवर बलिदान चढूण छु। यैक लिजी हमार जानवर लै हमर दगाड़ जॉल। हम उनुमिं बे एक लै याँ नि छोड़ि सकन।"

लेकिन प्रभु परमेश्वरल रॉजक मन कैं और लै निठूर बणै दे, यैक लिजी रॉजल उनुकैं नि जाण देय।

बचूणक त्यार

(निर्गमन ११:१-३, १२:१-१४)

तब प्रभु परमेश्वरल मोशेश धैं कौ, "मी एक बार आजि मिस्स देश मिं आपण आफत डालुंल। यैक बाद उं तुमुकैं यांबे जाणक लिजी नि रोकॉल, बलिकन जरूड़ भेजॉल। आँब तु इस्मायली मैंसोंक पास जा और उनुधैं कये कि हरेक मैंस और स्यैणि आपण-आपण मिस्सी पड़ोसियों धैं सुन-चांदिक जर-जिवर मांग लियो।"

प्रभु परमेश्वरल मिस्सी मैंसोंक मनों मिं इस्मायलियोंक लिजी आदर-भाव पैद करौ। रॉजक दरबारी और दुसॉर मिस्सी मैंस लै मोशेश कैं एक भौत तुल मैंस समझछी।

तब प्रभु परमेश्वरल मोशेश और हारून धैं कौ, "यौ म्हैण कैं तुम सालक पैल म्हैणक दसूं दिन हरेक मैंसल आपण परिवारक तरफ बे एक बकरक बोककी छांटिबेर अलग करण छु। अगर क्वे परिवार नॉन

छु, तब उ दुसर परिवारक दगाड़ संजैतक बोककी छांटि सकं। और उ एक सालक बरकनताज बोककी हण चैं, चाहे उ बकरक हो या भेड़क। तब तम सब इस्यायली मैंस उकैं यौ म्हैणक चौदूं दिन ब्याव बखत काटिया। और वीक बाद तुम वीक खून आपण-आपण घरक चौखटों मिं लगै दिया। और तम उकैं आँग मिं भड़ैबेर बिन खमीरी रऱ्वट और तित सागक दगाड़ उ रात मिं खै लिया।⁶ और वीक शिकार कैं रात्ति तलक नि बचाया, फिर लै अगर के बचि जाओ, तब उकैं आँग मिं जरूड़ भड़ै दिया। तुम आपण कमर बादिबेर, खुटों मि ज्वात पैरिबेर, हात मिं जांठ लिबेर यौ त्यार कैं फटाफट खाया, किलैकि मी तुमुकैं उ बखत मिस बे छुड़ल।

मी उ रात मिस देशक बीचक बॉट जंल और मिस्त्रियोंक मैंस और जानवर द्विनोंक ज्याठ औलादों कैं मारूल। और मी यौ देशांक सब द्याप्तों कैं लै सजा द्यूल, किलैकि मी प्रभु छु। और तुम सब मैंस आपण-आपण घरों मिं यौ बोकियक खून लगाया, जो म्यर लिजी निशाण हवल कि यौ इस्यायलियोंक घर छु। मी खून लागी घरों कैं छोडि द्यूल, और इसिक उ मुशीबत तुमुमि नि आओ। यौ दिन तुमर लिजी एक खाश यादगारिक दिन हवल और हर साल मिं तुम उ दिन म्यर यादगारिक लिजी यौ त्यार मनूनै रया।"



इस्यायली आपण देई मि खून लगूणई

दसूं सजा - ज्याठोंक मौत

(निर्गमन १२:२६-४०, १३:१६)

तब उ म्हैणक चौदूं दिन मिं मोशेशल रॉज धैं कौ, "प्रभु परमेश्वर यस कूनी, मी आज रात अधरात मिं मिस देशक बीचक बॉट जूल। और

⁶ इस्यायली हमेशा खमीरवॉल रऱ्वट खांठी। किलैकि पिसूं मि खमीर उठूण तलक टैम लागछी, यैक लिजी ऐल ढील हुणक कारणल उनुल बिन खमीरवॉल रऱ्वट जलदी पकण छी। किलैकि उनुकैं मिस बे झट्ट निकलणक लिजी तैय्यार हुण छी। तित साग दिस्खूछी कि यैकी चारि उनुल मिस मि आपण दिन भौत मुशीबतोंल कॉटछी।

मिस्रियोंक हरेक ज्याठ च्याल मरि जॉल। चाहे उं त्यर या त्यार सबन है नॉन काम करणिवॉल दासक ज्यठ च्यल किलै नि हो। उं सब मरि जॉल, और तुमार सब जानवरोंक पैल बॉछ-बहौड़ लै मरि जॉल। और साँर मिस्र देश मिं भौतै चिलकार पड़ल। यस चिलकार न आज तलक पड़ौ और न ऑब कभै पड़ल। लेकिन इस्मायलियोंक मैंसों और जानवरों कैं के नि हूवल। यां तलक कि उनर घर मिं कुकूर लै चूंचाट नि करॉल। यैल तुम समझि जाला कि मी प्रभु परमेश्वर मिस्री और इस्मायलियोंक बीच फरक करनू।"

यैक बाद मोशेशल यौ लै कौ, "तुमार दरबारी म्यर पास आल और मिकै पैलाग करिबेर बिनती करॉल कि तुम आपण मैंसों कैं यांबे लिबेर जाओ, और तब मी यांबे न्है जूल।" फिर मोशेश रॉजक सामण बे रीशल उठिबेर उनै रै।

तब सब इस्मायलियोंल उ दिन मिं बोक्की काटिबेर त्यार मना।

और जस मोशेशल कै रॉखछी, अधरात मिं प्रभु परमेश्वरल मिस्र देशोंक सब ज्याठ च्यालों कैं मारि दे, वीमि रॉजक च्यल, वीक सबों है नॉन काम करणिवॉल दास, और सबनॉक च्याल शामिल छी। और उनार जानवरोंक सब पैल बहौड़-बाछों कैं लै मारि दे। लेकिन इस्मायलियोंक क्वे लै नि मर।

तब रॉज, वीक दरबारी और सब मिस्री मैंस अधरात मिं उठिबेर जोर-जोरल डाड़ मारण भैटी, किलैकि वां मिस्रियोंक एक लै यस घर नि छी, जां क्वे नि मरी हो। तब रॉजल मोशेश और हारून कैं बुलवैबेर उनुधैं कौ, "यांबे दूर जाओ! और आपण दगाड़ सबों कैं ली जाओ! जसिक तुम चांछा आपण प्रभु परमेश्वरकि अराधना करो! और आपण-आपण गोरु-बाकरों कैं लै ली जाओ! लेकिन म्यर लिजी परमेश्वर धैं बिनती करो कि उं मिकै आशीश दियो।"

और मिस्री मैंसोंल इस्मायलियों धैं हात जोड़िबेर कौ, "तुम लोग यांबे जै दियो, नतेरि हम भली कै उजड़ जूल।" और इस्मायलियोंल मिस्रियों धैं सुन-चांदिक जिवर और लुकुड़ लै मांग लेई, जस मोशेशल कौछी, और उनुल उनुकैं फटाफट दी दे।

तब इस्मायली मैंस उ जाँग बे निकलीं। उं रामसेस नगर बे सुककोत गौक तरफ पैदल गेई। और इनुमि नॉनतिनों और स्यैणियों कैं छोड़िबेर बैग मैंसोंकि गिनती लगभग छै लाख छी। और उनर दगाड़ भौत गोरु-बल्द, भेड़-बकाँर और दुसौर जानवर लै छी।

इस्मायली मैंसों कैं मिस्र मिं रुन-रुनै चार सौ तीस साल है ग्याछी। और जाण बखत उं यूसुफक हड़कुनों कैं लै आपण दगाड़ ली गेई, जस यूसुफल उनार पुरखों धैं कै रॉखछी।

परमेश्वर आपण मैंसों कैं बॉट दिखूणई

(निर्गमन १३:१७-२०, १४:१-४)

तब प्रभु परमेश्वरल इसायलियों कैं पलिशितयोंक देशक नॉन बॉट बे नि जाण देय, किलैकि उनुल सोचौ कि उ बॉट जाण मिं इनर पलिशितयोंक दगाड़ लड़ै होलि, और यौ कारणल पछतैबेर कैं उं मिस वापिस नि न्हैं जाओ। यैक लिजी उं उनुकैं रेगिस्तानक बॉट बे लाल समुद्र तलक लिबेर आई।

प्रभु परमेश्वर दिन मिं इसायलियों कैं बॉट दिखूणक लिजी एक बादोवक खाश लम्ब टॉल और रात मिं उज्याव दिखूणक लिजी एक अँगक खंभक रूप मिं उनर अधिल-अधिल हिटणक लिजी धरा।

दिन मिं बादोवक टॉल और रात मिं अँगक खंभ इसायलियोंक अधिल बे नि हिटछी।

इसायलियोंल अधिल जैबेर मिसक आखिरी कुच एताम नगरक पास पुजिबेर आपण-आपण तम्बू लगाई।

तब प्रभु परमेश्वरल मोशेश कैं बुलैबेर कौ, "मैंसों धैं पछिल मुडिबेर उबॉट जाणक लिजी कौ। और रात मिं उनुधैं लाल समुद्रक किनॉर मिं रुकणक लिजी कये। तब रॉज यौ सुणिबेर सोचल, कि तुम अनजान देश मिं बॉट भुलिबेर गजबजी ग्याछा, और रेगिस्तान मिं फस ग्याछा। तब रॉज आपण मन बदेइबेर फिर तुमुकैं आपण गुलाम बणुणकि सोचल, और तुमर पिछ करल। तब मी आपणि शान-शक्ति दिखैबेर उकै और वीक पुर फौज कैं मारि दूयूल। इसिक मिसांक मैंस जाण जॉल कि मी प्रभु छूं।"

तब इसायलियोंल यस्सै करौ।

रॉज इसायलियोंक पिछ करुं

(निर्गमन १४:५-३१)

जब रॉज कैं पत्त लागौ कि इसायली वापिस नि उणाय, तब वील आपण मन बदइबेर दरबारियों धैं कौ, "हमुल उनुकैं किलै जाण दे? अॉब हमर काम को करॉल! हिटो, उनर पिछ करनू!" यौ कैबेर रॉजल आपण रथ निकलवा और आपण सिपैनों कैं लिबेर इसायलियोंक पिछ करौ।

तब जानै-जानै रॉज और वीक सारि फौज वां पुजाणी छी, जां इसायलियोंल तम्बू लगै रॉखछी।

जब इसायलियोंल देखौ कि रॉज और फौज उनर पिछ करणई, और दुसर तरफ समुद्र छु, तब उं भौत जादे डरि ग्याय। और फिर उनुल जोर-जोरल प्रभु

परमेश्वर कैं पुकारौ। उनुल मोशेश धैं कौ, "के मिस देश मिं कब्रिस्तानक जॉग कम छी, जो तु हमुकैं दफनूणक लिजी यौ रेगिस्तान मिं लांछै? के हमुल तुधैं मिस देश मिं यौ नि कौछिया कि तु हमुकैं हमर हाल मिं छोड़ि दे? यां मरण हबेर तो यौ भल छी कि हम उनर गुलामी करछी!"

लेकिन मोशेशल उनुधैं कौ, "तुम झन डरो, बेफिकर हबेर देखो कि प्रभु परमेश्वर आज तुमुकैं कसिक बचूं। आज बे तुम यौं मिसियों कैं फिर कभै नि देखला। प्रभु परमेश्वर आज तुमर तरफ बे लड़े करॉल, बस तुम चुपचाप हबेर चै रओ।"

प्रभु परमेश्वरल मोशेश धैं कौ, "मैंसों कैं अघिल जाणक लिजी हुकुम दे। और तु आपण जांठ कैं समुद्रक तरफ बढ़ा जैल वीक द्वी हिस्स है जॉल। तब तुम उ बीचक बॉट समुद्रक पार जै सकला। मी मिसियोंक मन कैं निठूर बणै द्यूल, और उं तुमुकैं पकड़णक लिजी समुद्रक बीचक बॉट आल। तब मी रॉजक फौज कैं हरूल, और सब मैंस म्यर आदर करॉल। और मिस्री मैंस समझि जॉल कि मी प्रभु परमेश्वर छूं।"

यैक बाद इसायलियोंक अघिल-अघिल हिटणी परमेश्वर उनर पिछाड़ि नहै गोय, और बादोवक टॉल लै वांबे हिटिबेर उनर पछिल बे ठॉड़ है गोय। ऐल सांस पड़न लागी। और इसायलियोंक तरफ परमेश्वरक उज्याव छी, लेकिन मिसियोंक तरफ अन्यारपट। और यैक लिजी मिस्री उनुकैं नि पकड़ि सक।

तब मोशेशल समुद्रक तरफ आपण हात उठा और प्रभु परमेश्वरल पूरबक तरफ बे हाव चलैबेर समुद्रक द्वी हिस्स बणै देई। इसायली समुद्रक बीचक सुकी बॉट मि हिटिबेर पार गेई, किलैकि पुर समुद्रक पाणि उनर दैण और बौं तरफ जॉम छी। और मिस्रक फौज लै उनर पिछ करन-करनै समुद्रक बीच गे।

उ बखतै प्रभु परमेश्वरल मिसियोंक रथोंक टैरों कैं मॉट मिं धसै दे, जैल उं दौड़ नि सक। यौ देखिबेर उनुमि भगदड़ मचि गेई, और उं चिल्लाट पाड़न लागीं कि यांबे भाजो, किलैकि प्रभु परमेश्वर उनर तरफ छु!

जब सब इसायली मैंस पार है ग्याय, तब प्रभु परमेश्वरल मोशेश धैं कौ, "अॉब आपण हात समुद्रक तरफ उठा, जैल समुद्रक बीचक बॉट खतम है जॉल।" तब मोशेशल उस्सै करौ, और समुद्रक पाणि फिर एक हुण लागौ। मिस्राँक मैंस वांबे वापिस भॉजण चांछी, लेकिन उं सब यौ पाणि मिं डुर्बीं। रॉज और वीक सब रथ, घवाड़, सवार, होई वीक सारि फौज मिंबे एक



लै नि बच। और इसायलियोंल
समुद्रक किनार-किनारै
मिस्त्रियोंक लाश देखीं। लेकिन
सब इसायली मैंस भली कै
समुद्रक पार पुर्जीं।

इसिक प्रभु परमेश्वरल
इसायलियों कै मिस्त्रियोंक हात
बे बचा। और इसायलियोंल
प्रभु परमेश्वरकि जै-जैकार

करी, और उनुल उमि भरौस करौ और मोशेश मिं लै।

इसायलियोंकि चांचेरि

(निर्गमन १५: १-१२)

तब मोशेशक दगाड़ इसायलियोंल परमेश्वरक लिजी यौ चांचेरि गै,
"हम तुमेरि महिमा करनू, किलैकि तुमुलै हमुकैं जितवा,
ध्वाङ्गों कै सवारोंक दगाड़ तुमुल समुद्र मिं खितौ! तुमी हमेरि रक्षा
करछा, तुमुलै हमुकैं बचा,
और हम तुमर लिजी गीत गांनू।

तुम हमर परमेश्वर छा,
और हम तुमेरि जै-जैकार करनू। तुम हमर पुरखोंक परमेश्वर छा,
और हम तुमेरि महिमाक गीत गांनू। प्रभु तुमर नाम छु
तुम हमर बदाव लड़छा! रॉजक सेना कै तुमुलै समुद्र मिं डुबा,
और उनर नामों-निशाण मिटै दे। उं समुद्र मिं इसिक डुबी,
जस क्वे छुड़क टुकुड़ हो।

हे प्रभु परमेश्वर, तुमर दैैन हात भौत ताकतबर छु,
यैल दुश्मणोंक टुकुड़-टुकुड़ करि देईं,
तुम आपण ताकतल विरोधियों कै मार छा। जस्सै आँग चिल कै
जलै दियूं,
उस्सै तुमुल उनुकैं मिटै दे। तुमर फुफकारल पाणि जॉम है जां,
और पाणिक बीच बे लै बॉट बणि जां,
और समुद्र नौणि जस जॉम जां।

हमर दुश्मणोंल कौ, "हम पिछ करिबेर पकडुंल,
 और लूटक सब समान कैं बाटि ल्यूंल,
 और उनुकैं पकड़िबेर तलवारल कॉटुंल।" लेकिन तुमुल आपणि
 फुफकार छोडी,
 और समुद्रल उनुकैं ढक ले,
 और उं समुद्र मिं लुवक चारि डुबीं।

हे प्रभु, तुमर जस और क्वे न्हैं,
 तुमर जस पवित्र लै क्वे न्हैं। तुमर जस अद्भुत काम करणी को
 छु?

तुमेरि जसि महिमा और कैकी न्हैं। हम तुमेरि महिमा करूू,
 किलैकि तुमुलै हमुकैं जितवा,
 घवाडों कैं सवारोंक दगाड़ तुमुल समुद्र मिं खितौ। तुमी हमेरि रक्षा
 करछा, तुमुलै हमुकैं बचा,
 और हम तुमर लिजी गीत गांनू।"

तित पाणि

(निर्गमन १५:२२-२७)

तब मोशेश इसायलियों कैं लाल समुद्र हबेर अघिल लिगो। लेकिन वां
 रेगिस्तान मिं उनुकैं पिणक लिजी कैं पाणि नि मिल। तब तीन दिनक बाद
 हिटन-हिटनै उं एक जाँग मिं पुर्जी, जां उनुकैं पाणि मिलौ। लेकिन उं यौ पाणि
 नि पी सक, किलैकि उ स्वाद मिं तित छी। यैक लिजी उ जाँगक नाम मारा
 छु, जैक मतलब छु तित।

और तब सब मैस मोशेश धैं जे ते कैबेर कूण लार्गीं, "अॉब हम के पीनू?"
 यैक लिजी मोशेशल प्रभु परमेश्वर कैं परेशान हबेर पुकारौ, और वीक जबाब
 मिं प्रभु परमेश्वरल मोशेश कैं एक लाकड़क टुकुड़ दिखा। मोशेशल यैकै
 पाणि मिं खितौ, और वीक बाद पाणि पिण लैक हैं गोय।

वां उ जाँग मिं प्रभु परमेश्वरल इसायलियोंक लिजी नीम बणैबेर उनर
 इम्तिहान ले, कि उं परमेश्वरक वचनक पालन करला या नै। उनुल कौ,
 "अगर तुम मेरि अवाज ध्यानल सुणला, और जो लै काम म्यर नजर मिं भल
 छु, उकैं करला, और म्यार सब नीमोंक पालन करला, तब मील जदुक लै
 रोग मिस्त्रियों मिं भेजीं, उनुमिं बे एक लै तुमुमिं नि भेजुंल। किलैकि मिं तुमुकैं
 चंग करणी प्रभु परमेश्वर छूं।"

तब उं एलीम मिं आईं, जां पाणिक बार छ्वाय और सत्री थांकोवॉक बोट छी, और उनुल वां आपण-आपण तम्बू लगाईं।

स्वर्गक खॉण

(निर्गमन १६:१-३१)

यैक बाद इस्सायली दलॉक सब मैंस वांबे अधिल गेई। उनर मिस्स देश बे निकलणक एक म्हैणक बाद उं सिनै नामक रेगिस्तान मिं पुजीं। वां यौं सब मैंस मोशेश और हारूनक विरोध कच-कचाट करण लागीं, "दिगौ ला, मिस्स देश मिं हम शिकारक डेगक सामण बैठिबेर पेट भर खॉण खांछी, लेकिन यां हम भुकल मरणयूं! यौं हबेर भल हुन कि प्रभु परमेश्वर हमुकैं वैं मारि दिन!"

तब प्रभु परमेश्वरल मोशेश धैं कौ, "देख, मी तुमर लिजी स्वर्ग बे खॉण बरसूल। यौं मैंस हर दिन भ्यार ऐबेर उ दिनक लिजी खॉण जॉम करॉल। इसिक मी इनुकैं परखुल कि उं मी मि भरौस करनी या नि करन, कि मी भोव लै इनुकैं खॉण द्यूल कैबेर।"

यैक लिजी मोशेश और हारूनल सब इस्सायलियों धैं कौ, "ब्याव बखत तलक तुम आइ भली कै जाण जॉला कि प्रभु परमेश्वरै तुमुकैं मिस्स देश बे भ्यार निकालिबेर यां लै रौ। रात्ति तुम उनर महिमा देखला। प्रभु परमेश्वर ब्याव हुं तुमुकैं खॉणक लिजी शिकार और रात्ति पेट भर रळाट द्याल। किलैकि जो कच-कचाट तुमुल प्रभु परमेश्वरक खिलाफ करछी, उनुल उ सुणौ। हम को छूं कि तुम हमर खिलाफ बकवास करणाछा? तुमर कच-कचाट हमर खिलाफ न्हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वरक खिलाफ छु।"

यैक बाद मोशेशल हारून धैं कौ, "तु सौर इस्सायलियोंक दल कैं यां जॉम करवा, किलैकि परमेश्वरल उनेरि कच-कचाट सुणि रॉखी।" जब हारून पुर इस्सायलियोंक दगड़ बात करणौछी, तब उनुल रेगिस्तानक तरफ चा और वां प्रभु परमेश्वरल आपण महिमा बादोव मिं दिखै।

तब ब्याव बखत वां भौतै बेटेर उडैबेर आईं और उं सब तम्बूक चारों तरफ बैठि ग्याय। उ ब्याव इस्सायलियोंल पेट भर उनर शिकार खा। और रात्ति उनार पड़ावोंक चारों तरफ ओस पड़ि रैछी। जब ओस सुक गेछी, तब मैंसोल सब जाँग तुस्यार जस पडी देखौ। जब इस्सायलियोंल उकै देखौ, तब उं एक दुसर धैं कूण लागीं, "यौं के छु, यौं के छु?" मोशेशल उनुकैं बता, "यौं तुमर लिजी परमेश्वरक तरफ बे खॉण छु। हरेक मैंस आपण-आपण पड़ावों भितेर रुणी मैंसोंक लिजी यकै एक-एक पैसेरि जॉम करिया।" तब

इस्सायलियोंल उस्सै करौ, और कैलै जादे, कैलै कम जॉम करौ। लेकिन उ सबनक लिजी बारबर हौ।

यौ खॉण धणियक बीं जस लेकिन सफेद छी, और यैक स्वाद मौक बणाई पुवूक चारि छी। और इस्सायलियोंल यौ खॉणक नाम मन्ना धरौ, जैक मतलब छु, "यौ के छु?"

मोशेशल उनुधैं कौ, "कवे लै मैस रात्ति तलक उकै बचैबेर नि धरिया।" लेकिन थवाड़ मैसोंल मोशेशक बात नि मानि, और थवाड़-थवाड़ बचैबेर दुसर रात्ति तलक धरि दे। लेकिन तब उमि सडैन बाश उण लागी और किड़ लै पड़ि ग्याय।

रोज रात्ति हरेक मैस उकै एक पैंसेरि जॉम करछी, लेकिन जो धरति मिं बचि रुंछी उ घाम लागणक बाद गइ जांछी।

जब छटूं दिन उनुल उ खॉण जॉम करौ, पैंसेरि मिं भरण पर उ रोज हबेर दुगुण हौ। तब इस्सायली दलाँक सब मखियाओंल ऐबेर मोशेश कैं यौ अणकसै बात बतै। तब मोशेशल उनुधैं कौ, "भौव प्रभु परमेश्वरक खाश दिन छु, जमि हम काम नि करूल। यैक लिजी तुम आजै भोवक लिजी लै खॉण बणाओ, चाहे उमाइबेर या चुल मिं पकैबेर, जस तुमर मन करूं।"

उनुल उस्सै करौ, और दुसर रात्ति न उमि बे बाश ऐ और न किड़ पड़। और मोशेशल उनुधैं कौ, "तुम यकैं खाओ, किलैकि तुमुकैं भ्यार यौ आज नि मिलो। छै दिन तलक जॉम करिया, लेकिन सतूं दिन परमेश्वरक लिजी एक खाश दिन छु, जो हमर लिजी ऐरामक दिन हवल।"

थवाड़ मैस सतूं दिन लै खॉण जॉम करणक लिजी भ्यार गई, पर उनुकैं वां के नि मिल। तब प्रभु परमेश्वरल मोशेश धैं कौ, "तुम लोग कब तलक मेरि बात नि मानला? देखो, मील तुमुकैं ऐरामक दिन लै दी है। मी छटूं दिन तुमुकैं द्वी दिनक लिजी खॉण यकैं दिन दिन। यैक लिजी हरेक मैस सतं दिन आपण घर मिं ऐराम करिया।" और तब इस्सायलियोंल हर सतूं दिन ऐराम करौ।

जब तलक इस्सायली कनान देशक वड़ मिं नि पुज, तब तलक उनुल चालीस साल लगातार मन्ना खा।



स्वर्ग बे मिलणी खॉण

अमालेकियों मिं जीत

(निर्गमन १७:८-१३)

यैक बाद जब इस्मायली रपीदीम नामक डॉन मिं छी, तब अमालेकी मैंस ऐबेर इस्मायलियों दगाड़ लड़न लागीं। तब मोशेशल यहोशू नामक मैंस थैं कौ, "तु थवाड़ मैंसों कैं छांटिबेर ली जा, और अमालेकियोंक दगाड़ लड़। मी आपण जांठ कैं लिबेर उच्च जाँग मिं ठॉड़ रूला।"

तब जस मोशेशल यहोशू थैं कैं रॉखछी वील उस्सै करौ, और उ मैंसों कैं लिबेर अमालेकियोंक दगाड़ लड़न लागौ। और मोशेश, हारून और हूर नामक एक मैंस उच्च जाँग मिं गेई। फिर यस हौ कि जब मोशेश आपण हात मेलिकै करछी, तब इस्मायली जितण लागीं। और जब तलि हुं करछी, तब अमालेकी जितण लागछी। जब मोशेशक हात मेलकै करी-करिये थक गेई, तब हारून और हूरल ढुड़ धरिबेर उमिं उकै बैठा, और वीक हातों कैं सहार दिबेर मेलिकै उठा। इसिक दिन ढुबण तलक मोशेशक हात तलि नि हौय, और यहोशू और सिपैनोंल अमालेकियों कैं भलिक हैरे दे।

इस्मायली सिनै पहाड़ मिं

(निर्गमन १६:१-२५)

इस्मायलियोंक मिस देश बे उणक ठिक द्वी म्हैणक बाद, उनुल रेगिस्तान मिं सिनै नामक डॉनक सामण पड़ाव करौ। तब मोशेश डॉन मिं परमेश्वरक दगाड़ भेट करणक लिजी गो, और प्रभु परमेश्वरल मोशेश थैं कौ, "तु इस्मायलियों थैं यौ कये, कि तुमुल देखौ कि मील मिसियोंक दगाड़ के करौ, और जसिक गरूड़ आपण प्वथीलों कैं आपण पांखू मिं बैठैबेर हिफाजतल उडूं, उसिकै मी लै तुमेरि हिफाजत करिबेर यां लायूं। अगर ऑब तुम मेरि बात ध्यानल सुणला और म्यर हुकुमक पालन करला, तब सारि धरतिक मैंसों मिं बे तुम म्यार आपण खाश मैंस हवला। यौ पुर दुनी मेरि छु, लेकिन तुमी म्यर लिजी एक पवित्र मैंस बणिबेर मेरि सेवा करला और मी तुमर राँज बणुल।

तब मोशेशल परमेश्वरक सामण बे ऐबेर इस्मायलियोंक पधानों कैं बुलवा, और उनुकैं परमेश्वरकि सब बात बतै। और सब मैंसोंल एक दगाड़ जबाब दे, "जो प्रभु परमेश्वरल कैं रॉखौ, हम उस्सै करूला।" यौ सुणिबेर मोशेश प्रभु परमेश्वरक पास फिर गो और मैंसोंक यौ जबाब बता।

तब प्रभु परमेश्वरल मोशेश धैं कौ, "मी इस्यायलियों कैं दिखूळ कि तु म्यर खाश सेवक छै। देख, मी घण बादोवोंक दगाड़ त्यर पास ऊँल। मी त्यर दगाड़ बात करुँल, और सब मैंस उकै सुणिबेर हमेशा तुमि भरौस धरॉल। तु मैंसोंक पास वापिस जा और उनधैं आपुं कैं पोर दिन तलक शुद्ध हुणक लिजी कौ। उं आपण लुकुड़ लै ध्वे लियो। किलैकि मी पोर दिन मैंसोंक सामण सिनै डॉन मिं ऊँल, जां सब मैंस मिकै देखि सकॉल। तु मैंसोंक लिजी डॉनक चारों तरफ बाड़ करि दिये, और हरेक मैंसोंकै चिताक करि दिये कि क्वे लै मैंस यौ डॉन मिं नि जाया, और यौ बाड़ कैं छुडिया लै झन। जो मैंस यौ डॉन कैं छुडल, तुम उकै हात झन लगाया, पर हुड या तीरोंल ज्यूनै मारि दिया। चाहे उ मैंस हो या जानवर, जो लै यौ डॉन कैं छुडल, मरि जॉल। लेकिन जब भुकौरक अवाज देर तलक सुणियेलि, तब उं डॉन मिं जै सकनी।⁷

यैक बाद मोशेश पहाड़ बे तेलि मैंसोंक पास आ और बील उस्सै करै जस प्रभु परमेश्वरल कै रॉखछी। बील मैंसों धैं यौ लै कौ, "तुम तीन दिन तलक आपण स्यैणियोंक दगाड़ झन पड़या पर परमेश्वरक लिजी तैयार होया।"

तिसर दिन राति पर बादोवक गर्जनक दगाड़ चाल चमकी और एक घण बादोव डॉन मिं आ, और वांबे भौतै तेज भुकौरोंकि अवाज सुणीणैछी। तब मैंस यौ सब देख-सुणिबेर डरिल कॉमण लागीं। तब मोशेश मैंसों कैं परमेश्वर धैं भेट करूणक लिजी पड़ावोंक जॉग बे भ्यार ल्या और उं सिनै पहाड़क ताव बे ठांड़ है ग्याय।

सिनै पहाड़ धुडल भरी रौछी, किलैकि प्रभु परमेश्वर आँगक दगाड़ वां आछी। और वांबे धुड़ इसिक मलि उठौ, जसिक क्वे ठुल भट्टी बे उठूं। और पुर डॉन लै भौत जादे हलकौ। जस-जस भुकौरोंकि अवाज तेज हुण लागी, तब मोशेशल प्रभु परमेश्वर धैं बात करी, और प्रभु परमेश्वरल गर्जनक बीच बे मोशेश कैं जबाब दे।

परमेश्वरक नीम

(निर्गमन २०: १-२३)

और प्रभु परमेश्वरल यौं सब बचन कर्द्दीं,

"मी तुमर प्रभु परमेश्वर छूं जो तुमुकै मिस्स देश बे भ्यार निकालिबेर ल्यै रर्यूं। तुम और कैकणी परमेश्वर नि मानिया। तुम आपण लिजी क्वे

⁷ भुकौर - या रणसिंग

द्याप्तक मूरती झन बणाया, न मैंसक रूप मिं, न जानवरक रूप मिं और न दुनियाँक और क्वे लै चीजक रूप मिं। तुम चौड़ हबेर उनेरि अराधना झन करिया और न उनेरि सेवा करिया। किलैकि मी तुमर प्रभु परमेश्वर जलन करणी छूं, और जो म्यर दगाड़ घीण करनी मी उनर सजा उनर तिसर-चौथ पुश्तोंक संतानों तलक दिनै रूल। लेकिन जो मैंस मिथैं प्रेम करनी और म्यर हुकुमक पालन करनी, उनर परिवारों मिं मी आपण दया हजार पुश्तों तलक करनै रूल। तुम आपण प्रभु परमेश्वरक नाम बेमतलब झन लिया, लेकिन उनर नाम आदरल लिया। किलैकि जो प्रभु परमेश्वरक नाम बेमतलबल ल्युं, उकै परमेश्वर सजा जरूड़ दिनै। तुम हफ्तक सतूं दिन कैं एक खाश दिन मानिया। तुम छै दिन मेहनत करिया और आपण सब काम करिया, लेकिन सतूं दिन तुम क्वे काम झन करिया- न तुम, न तुमार च्याल-चेली, न नौकर-नौकराणी, न तुमार जानवर और न तुमार नगर मिं रुणी परदेशि मैंस। किलैकि छै दिन मिं अगाश-धरति, समुद्र और जो सब उनुमि छु, उ सब मील बणा और सतूं दिन ऐराम करै। यैक लिजी मील उकै खाश दिन ठैरा। तुम आपण इज-बौज्यूक आदर करिया। तब उ देश मिं जो मी तुमुकै दिणी छूं, तुम आपण जिन्दगी कैं लम्ब बखत तलक वां ज्यून रैबेर बिताला। तुम खून नी करिया। तुम व्यभिचार नी करिया। तुम चोरि नी करिया। तुम क्वे लै बातक और कैकै बारि मिं झुटि झन लगाया। तुम कैकै घरक लालच नि करिया, और न कैकि स्यैणि, नौकर-नौकराणी, गोरु-बॉछ, गधा और न वीक क्वे लै चीजक।"

जब सब मैंसोंल बादोवक गर्जन, चाल-चमकण, भुकौरक अवाज और डॉन बे धुड़-उण देखौ-सुणौ, तब उं डरिल कामिबेर दूर ठॉड़ है ग्याय। और उनुल मोशेश धैं कौ, "प्रभु परमेश्वर कैं हमर दगाड़ बात नि करन दे, नतेरि हम मरि जूल! सिरफ तुम हमर दगाड़ बात करिया, और हम तुमर बात सुणुल।" मोशेशल मैंसों धैं कौ, "तुम नि डरो, किलैकि प्रभु परमेश्वर तुमुकै परखणक लिजी ऐ रौ, कि तुम वीक कौय मानिबेर पाप बे दूर रौला।"

तब परमेश्वरल कौ, "तुमुल खुदै म्यर चमतकार देखौ और खुदै सुणौ कि मील तुमुधैं बात करी। यैक लिजी तुम क्वे लै सुनक या चांदिक द्याप्तक मूरती बणैबेर म्यर जॉग मिं वीक पुज झन करिया।"

इसायलियोंक सबों है ठुल पाप

(निर्गमन २४:१२, १६, ३१:१८, ३२:१-३५)

यैक बाद परमेश्वरल मोशेश धैं कौ कि तु डॉन मिं म्यर दगाड़ आ, और मी तुकैं आपण सब नीमों कैं बतूल, जैल तुमुकैं पत्त चल जॉल कि तुमुल म्यर अराधना कसिक करण छु। तब मोशेश डॉन मिं गो, और उ वां चालीस दिन तलक रौ। और परमेश्वरल उकैं वां आपण सब नीम बताई। और सब नीम बतूणक बाद प्रभु परमेश्वरल मोशेश कैं आपण हातल ढुड़ मिं लेखी नीमक द्वी पाथर देर्इ।

लेकिन जब मोशेश डॉन मिं छी, तब दुसर तरफ इसायलियोंल यस कौ, "मोशेश डॉन मिंबे किलै नि आया!" यैक लिजी उनुल हारूनक पास जैबेर कौ, "उठो, और हमर लिजी एक मरती बणाओ जो हमर अधिल-अधिल हिटो। किलैकि हम नि जाणन कि मोशेश कां छु, उ ज्यून छु या नहैं, वीक हमुकै के पत्त नहैं!"

हारूनल उनुधैं कौ, "ठिक छु, जो सुनाँक कनफूल तुमार स्यैणियोंक और च्याल-चेलियोंक कानों मिं छन, उनुकैं निकालिबेर म्यर पास ल्याओ।" उनुल उस्सै कररौ। हारूनल उनर हात बे सुन लिबेर सुनक एक बॉछ बणा। और मैंस आपस मिं कूण लागी, "यौ हमर परमेश्वर छु, जो हमुकै मिस देश बे भ्यार निकालि ल्या।" यौ देखिबेर हारूनल उनर लिजी एक वेदी लै बणै। और वील उनुधैं कौ, "भोव हम परमेश्वरक लिजी एक त्यार मनूल।"

दुसर दिन उनुल राति पर उठिबेर ऑंग मिं बलिदान चढ़ाणक लिजी और आपण ख्वॉणक लिजी लै अलग-अलग जानवर कॉटी। फिर उनुल शिकार और शराब खै-पी करणक बाद स्यैणि और बैग आपस मिं अलमस्त हबेर एक-दुसरक दगाड़ नाचण-खेलण लागी, और यैक अलावा उनुकैं के चीजक सुद्ध नि छी।

तब डॉन मिं प्रभु परमेश्वरल मोशेश धैं कौ, "जा, तलि जा। त्यार मैंस जनुकैं तु मिस देश बे भ्यार निकालिबेर लै रौछिये, उं बिगड़ गेर्इ। तु देखि ले, उनुल आल्लै-आल्लै म्यर नीम टोड़ि है, और उनुल सुनक बाछक मूरती बणैबेर उकैं भेट चढ़ैबेर वीक अराधना करी। और उधैं यस लै कौ कि द्यखो, यौ हमर परमेश्वर छु, जो हमुकै मिस देश बे बचैबेर भ्यार ल्याछी। ऑंब मील देखि है कि उं कतुक ट्याड़ मैंस छन। यैक लिजी ऑंब तु म्यर रीशक ऑंग कैं नि रोक। मी उनुकैं खॉक करि द्यूल। और उनर बदाव मी त्यरै वंशल एक महान देश बणूल।"

लेकिन मोशेशल परमेश्वरकि रीश शांत करणक लिजी गुजारिश करी, "हे प्रभु परमेश्वर, तुम आपण मैंसों कैं देखिबेर इतुक नराज किलै हैराछा? तुम उनुकैं आपण सामर्थक ताकतल मिस्स देश बे भ्यार निकालिबेर ल्यै राछा। अगर तुम उनुकैं नांश करला, तब मिस्सांक मैंस यस कौल कि तुम उनुकैं मारणक लिजी मिस्स देश बे भ्यार निकालि ल्यै राछा। यैक लिजी तुम आपणि रीश शांत करो, और उनुकैं माफ करि दियो। तुम आपण सेवक इब्राहीम, इसहाक, और याकूब कैं याद करो। उनुधैं तुमुल यौ वैद करि रॉखछी कि मी तुमार वंशजों कैं अगाशक तॉरोंक चारि अनगिनत बणूल और यौ पुर देश उनुकैं हमेशाक लिजी द्यूल।"

यौ सब सुणिबेर प्रभु परमेश्वरल आपण मैंसों कैं खतम करणक मंशा छोड़ि दे।

तब मोशेश आपण दगाड़ नीमवॉल पाथर लिबेर तेलि आ। यौं पाथर परमेश्वरक जरियल बणाई छी, और इनर द्विवै तरफ वीक हुकुम लेखी छी।

जब मोशेश पड़ावोंक नजिक पुजौ, तब सुनक बॉछ और उनर तमाश देखिबेर उकैं भौतै रीश ऐ और वील उ पाथरों कैं जो उ ल्युणौछी, उनुकैं डॉनक तरफ खेड़ि दे। और उनार टुटिबेर टुकुड़-टुकुड़ है ग्याय। तब मोशेशल उ बॉछ कैं जो उनुल बणै रॉखछी, आँग मिं खितौ। और जब उ गइ गोय वांबे निकालिबेर पिसणक बाद उकैं पाणि मिं घोडबेर इसायलियों कैं पिलै दे।

वीक बाद मोशेशल हारून धैं पुछौ, "यौं मैंसोंल त्यर दगाड़ के करि रॉखछी, जो त्वील इनुकैं इदुक भयंकर पाप मिं फसा?" हारूनल जबाब दे, "तुम मिधैं नि रिशाओ। किलै तुम यौं मैंसों कैं नि जाणना कि यौं हमेशा बुराइ करणक लिजी तैय्यार रुनी? इनुल मिधैं कौ कि हमर लिजी एक यस मूरती बणाओ, जो हमर अधिल-अधिल हिटो। किलैकि हम नि जाणन कि मोशेश कां छु, उ ज्यून छु या न्हैं, वीक हमुकैं के पत्त न्हैं। मील उनुधैं कौ, "जनर पास सुन छु, उं उकैं उतारिबेर दियो।" और जब मील उकैं आँग मिं खितौ, तब यौं बॉछ भ्यार निकलौ!"

मोशेशल देखौ कि मैंस अवारा है गेई, किलैकि हारूनल उनुकैं नि रोक। और आँब उनार दुश्मण उनर मजाक जरूड़ बणाल। तब मोशेशल धात लगैबेर कौ, "जो-जो परमेश्वरक तरफ छु, उ म्यर दगाड़ ऐ जाओ!" और यौ सुणिबेर लेवी कुलांक सब मैंस वीक तरफ ऐ ग्याय। मोशेशल उनुधैं कौ, "इसायलियोंक प्रभु परमेश्वर यस कूनी, कि तुम आपण कमर मिं तलवार बाद लियो। और पड़ावोंक चारों तरफ घुमि-घुमिबेर मैंसों कैं मारो, चाहे उ

तुमर भै, दगड़ु या पड़ोसी क्वे लै हो।" तब लेवियोंल उस्सै करौ। और उ दिन इसायली समाजॉक लगभग तीन हजार मैंस मारी गई।

तब मोशेशल लेवी कुलाँक मैंसों धैं कौ, "आज तुमुल परमेश्वरक कौय मानिबेर आपण मैंसोंक त्याग करौ। यौ कारणल परमेश्वर तुमुकैं आशीश द्यल, और आज बे तुम उनर खाश सेवक हूवला।"

दुसर दिन मोशेशल बाकि इसायलियों धैं कौ, "तुमुल घोर पाप करि रॉखौ, लेकिन फिर लै मी तुमर खातिर प्रभु परमेश्वरक सामण माफि मांगणक लिजी डॉन मिं जानू।" यैक लिजी मोशेश प्रभु परमेश्वरक सामण गो। और वील परमेश्वर धैं कौ, "यौं मैंसोंल भौत भयंकर पाप करि रॉखौ - इनुल आपण लिजी एक सुनक मूरती बणै रॉखी और वीक पुज करणई। लेकिन तुम आँब इनर पाप माफ करि दियो। अगर नि करना, तब यैक बदाव मिकै सजा दियो।" लेकिन प्रभु परमेश्वरल मोशेश धैं कौ, "जनुल म्यर खिलाफ पाप करि रॉखौ, इनुकै मी सजा द्यूल।"

तब प्रभु परमेश्वरल पापि मैंसों मिं महामारि भेजी, किलैकि उनुल हारूनक बणाई सुनक बाछक मूरतिक पुज करछी।

मोशेशक इसायलियोंक लिजी बिनती

(निर्गमन ३३: १-३, १२-२३)

प्रभु परमेश्वरल मोशेश धैं फिर कौ, "तु उं मैंसों कै, जनुकै तु मिस्स देश बे निकालिबेर ल्यै रौछै, यां बे अघिल उ देशक तरफ ली जा, जैक बारि मिं मील इब्राहीम, इसहाक और याकूबक दगाड़ यौ वैद करि रॉखछी, कि मी यकै तुमार वंशजों कै द्यूल। और जतुक मैंस ऐल वां रुनी, म्यर स्वर्गदूत उनुकै भ्यार निकालि द्यल। लेकिन मी खुद तुमर दगाड़ नि ऊं, कैं यस नि हो कि मी तुमुकै बॉट मिं खतम करि द्यूं, किलैकि तुम ट्याड़ और पापि मैंस छा।" यौ बात सुणिबेर मैंस डाड़ मारण लागि ग्याय, और उं भौतै दुःखी हई।

मोशेशल प्रभु परमेश्वर धैं कौ, "देखो, तुम मिधैं कूछा कि यौ मैंसों कै लिबेर जा। लेकिन तुमुल मिकै यौ नि बताय कि तुम म्यर दगाड़ कै कै भेजला, जबकि तुमुल मिधैं कौ, कि तु म्यर भलौ दगड़ु छै, और तुकै देखिबेर मी खुशि छूं। लेकिन मी तुमर बिना यौ मैंसों कै कसिक ली जूंल? मिकै तुमर राय जरूड़ चैं जैल मी ठिक काम करि सकुं, और तुम मिकै देखिबेर खुशि रओ। और यौ लै याद धरिया, कि उं सब तुमार छांटी मैंस छन।" प्रभु परमेश्वरल कौ, "के मील तुकैं समझूणक लिजी खुद उण छा?" मोशेशल

परमेश्वर धैं कौ, "अगर तुम खुद हमर दगड़ नि आला, तब तुम हमुकै यांबे अधिल जाणक लिजी नि कया। किलैकि तब हमर और दुसौर मैंसों मिं के फरक नि हवल, और दुसौर मैंसों कै कसिक मालुम हवल कि तुम हमुकै देखिबेर खुशि छा?"

तब प्रभु परमेश्वरल मोशेश धैं कौ, "जो त्वील कौ, उ काम मी करुल, किलैकि तु म्यर भलौ दगडु छै, और मी तुकै देखिबेर खुशि छूं।"

तब मोशेशल यौ लै मांगौ, "किरपा करिबेर मिकै आपण दर्शन दियो।" परमेश्वरल कौ, "मी प्रभु छूं, और जमि दया करण चां, उमि दया करनू। ठिक छु, मी आपण दर्शन द्यूलू। लेकिन तु म्यर मूख नि देखि सकनै, किलैकि जो मैंस म्यर मूख देखल, उ जरूड़ मरि जॉल। यैक लिजी तु यां पखाण मिं ठाँड़ है जा। और जब मी त्यर सामण ऊल, तब तलक तुकै आपण हातल लुकै रॉखुल, जब तलक मी त्यर सामण बे न्है नि जूं। बीक बाद मिं आपण हात हटै द्यूलू, और तब सिरफ तु म्यर पूठ देखलै। लेकिन म्यर मूख तु नि देखि सकनै।" तब यस्सै हौ।

परमेश्वरांक हुकुमक दुसौर पाथर

(निर्गमन ३४: १-४, २८-३२)

प्रभु परमेश्वरल मोशेश धैं कौ, "तु पैलिवॉल पाथरोंक चारि द्वी पाथर आइ बणा। मी उनुमिं वी बात लिखुल जो मील पैलिवॉल पाथरों मिं लिख रॉखछी, जकै त्वील टोड़ दे। यैक लिजी तु राति पर तैय्यार हबेर और आपण दगड़ उं पाथरों कै लिबेर, सिनै डॉन मिं म्यर पास आये।" यौ सब सुणणक बाद मोशेशल पैलिवॉल पाथरोंक चारि द्वी ढुड़क पाथर आइ तैय्यार करी, और उनुकै लिबेर परमेश्वरक पास सिनै डॉन मिं गो। और वां उ परमेश्वरक दगड़ चालीस दिन और चालीस रात तलक रै। और यौ बीच वील नै के खाय और नै के प्यौय। और वील वां परमेश्वरक जरियल बताई हुकुमों कै पाथरों मिं लिखौ।

और जब यौ चालीस दिनोंक बाद मोशेश तेलि आ, तब उकै यौ पत्त नि छी कि परमेश्वरक दगड़ रुणल वीक मूख लै भौतै जादे चमकदार है गो। और जब हारून और दुसौर इसायली मैंसोंल देखौ कि मोशेशक मूख बे चमकिल-चमकिल सूरजक किरण जाँस निकलणई, तब उं वीक नजिक उण मिं डरण लागीं। लेकिन मोशेशल उनुकै बुलैबेर समझा कि तुम बिल्कुल नि डरो। यौ

सुणणक बाद सब मैंस निडर हबेर वीक पास आई, और परमेश्वरक बातों कैं मोशेशक जरियल सुणन लागीं, जो परमेश्वरल मोशेश कैं बतै रॉखछी।

परमेश्वरक तम्बू और वैदक संदूक

(निर्गमन २५:८, ३५:४-१०, ३७:१-६, ३६:४२, ४०:३४)

यौ सब हुणक बाद, परमेश्वरल मोशेश धैं कौ, "तु म्यर रुणक लिजी एक पवित्र जाँग बणाये, जां मी तुमर बीच मिं रूल। जस मी तुकैं दिखूलं, वीकै चारि तु उकैं बणवाये।"


यैक लिजी मोशेशल इसायली मैंसों धैं कौ, "प्रभु परमेश्वरक लिजी भेट जॉम करो। जतुक तुम दिण चांछा, उदुक दियो। तुम भेटक लिजी यौं सब चीज ल्याया - सुन, चांदि, कॉस, निल, बैग्नि और लाल उण, मुलैम कप्ढ, बाकरॉक बाव, भेड़कि पविक सुकाइ खाल, कौव चम्ड, बबूलक लाकड़, दयु जलूणक लिजी जैतूनक तेल, अभिषेक और खुशबुदार धूपक लिजी मश्याल, और तम्बू मिं परमेश्वरक काम करणिवॉल खाश सेवक (जैकै महायाजक कूँनी), वीक लुकुड़क लिजी अलग-अलग किसमॉक भला-भाल नग लै ल्याया।

और तुमर बीच मिं जो असली मिस्त्री छन, उं यौं सब समान लिबेर प्रभु परमेश्वरक लिजी एक भलौ तम्बू बणाया।"

जस प्रभु परमेश्वरल मोशेश कै हुकुम दी रॉखछी, इसायलियोंल वीकै अनुसार काम करै। उनुल परमेश्वरक लिजी एक भलौ तम्बू बणा, और उमि धरणक लिजी अलग-अलग समान लै।

और मोशेशल परमेश्वरक कूणक अनुसार परमेश्वरक तम्बू भितेर

धरणक लिजी एक खाश किसमक संदूक बबूलक लाकड़क बणवा। उ ढाइ हात लम्ब, ढेड़ हात चाकव और उदुकै उच्च लै छी। वीक भ्यार-भितेर सुन लगाई छी। और वीक चार कुचों मिं चार खुट छी, उनुमि लै सुन लगाई छी। वीमि ढक्कन



परमेश्वरक तम्बूक चारों तरफ इसायलियोंक ड्यार लागी छी, जैक मांथि मिं द्वी

ठुला-ठुल फांकोंवाल स्वर्गदूत एक-दुसरक तरफ मूख करिबेर ठाँड़ है राछी। यौं लै सुनल बणाई छी। यौं संदूकक अधिल और पछिल बे द्वी-द्वी डंड लगाई छी, जनुकै उठैबेर मैंस यकै यथ-उथ ली जांछी। उनुल यौं बग्सक भितेर परमेश्वरक नीमक पाथर धरीं। यैक लिजी उं यकै परमेश्वरक वैदक संदूक कूँछी।

यौं सब काम खतम हुणक बाद बादोवल ऐबेर परमेश्वरक तम्बू कैं ढक दे, और प्रभु परमेश्वरकि महिमा उ जाँग मिं भरी गोई।

मैंस कनान देशक भेद लिहुं जाणई

(गिनती १०:११-१२, १३:१-२६)

तब यस है, कि सिनै डॉन मिं पुजणक लगभग एक सालक बाद परमेश्वरक बादोवक टॉल वांबे अधिल गो। तब इसायली बादोवक पछिन-पछिनै कनान देशक बड़क नजिक पुँजीं। और वां बादोवक टॉल लै रुकौ।

तब प्रभु परमेश्वरल मोशेश धैं कौ, "कनान देश जकैं मी इसायलियों कैं दिणिवाँल छु, वीक भेद लिणक लिजी बार मैंसों कैं भेज, हरेकाँक पुरखोंक वंश बे एक-एक मैंस।"

यैक लिजी मोशेशल प्रभु परमेश्वरक हुकुमक अनुसार इनुकै लगा - रुबेनक वंश बे जक्करक च्यल शम्मू, शमौनक वंश बे होरीक च्यल शापात, यहूदाक वंश बे यपुत्रेक च्यल कालेब, इस्साकारक वंश बे योसेपक च्यल यिगाल, एफाइमक वंश बे नूनक च्यल होशे, जैक नाम मोशेशल यहोशू धरौ, (जैक मतलब छु कि परमेश्वर बचूनी), बिन्यामीनक वंश बे रापूक च्यल पलती, जबूलूनक वंश बे सोदीक च्यल गद्दीएल, यूसुफक वंशजों बे मनशेशक वंश बे सूसीक च्यल गद्दी, दानक वंश बे गमल्लीक च्यल अम्मीएल, अशेरक वंश बे मीकाएलक च्यल सतूर, नफतालिक वंश बे वोप्सीक च्यल नहबी, गादक वंश बे माकीक च्यल गूणेल।

यौं मैंसों कैं मोशेशल कनान देशक भेद लिणक लिजी भेजि राँखछी।

जब मोशेशल उनुकै भेद लिणक लिजी भेजौ, तब वील कौ, "तुम जैबेर उ देशक बारि मिं भली कै पत्त-पाणि लगाया कि वांक मैंस ताकतबर छन या कमजोर? और उं कतुक हवाल? और उ देश हमर रुणक लैक छै या न्है? के वांक नगरोंक हिफाजतक लिजी वीक चारों तरफ दिवाल लै छना? और वांकि जमीन उपरु छै या तवों? वां बोट डाव छन या न्हैतिन, और जरूड़ हबेर आपण दगाड़ उ देशाँक थ्वाड़ फल-फूल लिबेर जरूड़ आया।"

यैक बाद उं भेद लिणी बार मैंस न्है ग्याय। उनुल रेगिस्तान बे लिबेर रहोब नगर तलक पुर कनान देशक भेद ले। यैक बाद उं नेगेवक बॉट हेब्रोन पुजीं, जां भौतै लम्ब-चौड़ मैंस रुंछी। उं फिर एश्कोलिक घाटिक तवों जॉग मिं पुजीं, और वांबे उनुल एक ठुलौ अंगूरक गुच्छ टोड़ौ जकैं द्वी मैंस जगिबेर ल्याई। और वीक अलावा उं अनार और तिमुल लिबेर लै आई। इसिक उ देशक हरेक चीजक पत्त लगैबेर चालीस दिनक बाद उं इस्मायलियोंक पास लौटीं।

भेदक खुलाश

(गिनती १३: २७-३३)

तब उनुल मोशेश धैं कौ, "जो देश मिं तुमुल हमुकैं भेजछी, हम वां गोयूं। वांक यौं फल देखो! उ देशक पैदावार इदुक भलि छु, कि वां के चीजक कमी न्हैं। लेकिन वांक जनता भौत ताकतबर छु, और वांक नगरक चारों तरफ पक्किक दिवालकि घेर बाड़ छु। हमुल वां भौतै लम्ब-चौड़ मैंसों कैं लै देखौ। नेगेवक भाबर मिं अमालेकी, पहाड़ी भाग मिं हित्ती, एमोरी और यबूसी मैंस रुंनी, और समुद्रक और गाड़क किनाँर-किनारै कनानी मैंस बसी छन!"

तब यौ बात सुणिबेर मैंस मोशेशक विरोध करण लागीं और कूण लागीं, "हम उ देश कैं आपण बश मिं कसिक करि सकनू! उं हमु हबेर भौत ताकतबर छन!"

तब भेद लिणिवॉलों मिंबे कालेब और यहोशूवल मैंसों कैं समझूणक लिजी कौ, "डरो झान, हम जल्दी उ देश मिं हम्मल करिबेर उकैं आपण कब्ज मिं करि सकनू, किलैकि परमेश्वर हमर दगाड़ छु!"

लेकिन और भेद लिणिवॉलोंल वांक बारि मिं और लै भयंकर बात बतै, कि उ देश भौत खतरनाक छु जो आपणै निवासियों कैं खै दियूं। और जदु लै मैंस हमुल वां देर्खीं, उं सब भौत लम्ब-चौड़, हट्ट-कट्ट छी। और वां यस मैंस लै रुंनी, जो इदुक लम्ब छन कि हम उनर सामण पिटड जॉस देर्खीनू।

मैंसोंक डर

(गिनती १४: १-१०)

तब सॉर इस्मायली दलॉक मैंस एक दगाड़ डरिल हकाहाक करण लागीं। और रात भर डाड़ मारनै रई। फिर उं मोशेश और हारून धैं यौ कैबेर कच-

कचाट करण लागीं, "काश हम मिस देश मिं मरि जांछी! अगर हम यौ कनान देश मिं हम्ल करुल, तब उं हमेरि स्यैणियों और नॉनतिनों कैं लै गुलाम बणै ल्याल, और हमुकै मारि द्याल। यौ हबेर भल छु कि हम आइ लै मिस देश लौट जानू!" और उनुल आपस मिं सला करौ कि हम कैकणी आपण नेता छांटिबेर वीक दगाड़ मिस वापिस लौट जानू।

तब यौ सब देख-सुणिबेर मोशेश और हारून सब इस्मायलियोंक खुटॉन मिं पड़ीं, कि तुम यस झान करिया! और यहोशू और कालेबल भौतै दुःखी हबेर आपण लुकुड़ फाड़िबेर सॉर इस्मायलियों कैं बता, "यौ देश भौतै जादे भल और उपजाउ छु, तुम हमर यकीन करो! अगर हमुकै देखिबेर परमेश्वर खुशि छन, तब उं हमुकै उ देश जरूड द्याल। लेकिन तुमुकैं परमेश्वरक हुकुम मानण पड़ल। और वांक मैसों कैं देखिबेर नि डरण पड़ल, किलैकि हमार सामण उं रऱ्टक चारि छन, जनुकैं हम अरामल खै द्यूल। प्रभुकि किरपा उनुमि न्है, पर उ हमेरि दगाड़ छु, यैक लिजी तुम बिल्कुल नि डरो।"

लेकिन जब सब इस्मायली मैंस उनुकै ढुडल ज्यूनै मारणक लिजी सोचण लागीं, तब उबखतै उनुकै रोकणक लिजी प्रभुक सामर्थ परमेश्वरक तम्बू मिं देखी।

मोशेश इस्मायलियोंक लिजी बिनती करणौ

(गिनती १४:११-१६)

तब परमेश्वरल मोशेश धैं कौ, "यौं मैंस म्यार अद्भुत कामों कैं देखिबेर जो मील इनर बीच मिं करी, वीक बाद लै यौं कब तलक मि पर भरौस नि करॉल? मी इनर हक नि द्यूं और इनुकैं महामारिल मारि द्यूल। लेकिन मी तुबे एक यस देश बणूल, जो इस्मायलियों हबेर जादे ठुल और ताकतबर हवाल।"

पर यौ सुणिबेर मोशेशल परमेश्वर धैं कौ, "अगर तुम यौं मैंसों कैं नांश करि द्याला, तब जनुल तुमेरि बढाई सुण रॉखी, उं मैंस यस सोचॉल कि तुमुल जो देश उनुकैं दिणकि कसम खै रॉखछी, तुम उनुकैं वां नि पुजै सक छिया। यैकै लिजी तुमुल उनुकैं वां रेगिस्तान मिं मारि दे। और जब मिसक मैंस इस्मायलियोंक बिनाशकि यौ बात सुणॉल, तब के कौल? यां बटी तो उनुकैं निकालिबेर ली गई, और अधबाटै उनुकैं मारि दे। हे प्रभु, किरपा करिबेर आँब आपण दया दिखाओ, किलैकि तुमुल कौछी, कि तुम रीश करण मिं धिम, भौतै दयालु, पाप और कसूरों कैं माफ करणी लै छा। उनर

पापक सजा मिलण उनुकैं जरूड़ी छु, फिर लै जसिक तुम उनार कसूरों कैं
मिस्त्र बे आज तलक माफ करनै आछा, उसिकै आइ लै करि दियो।"

परमेश्वर सजा बतूणई

(गिनती १४:२०-३८)

तब प्रभुल कौ, "तेरि गुजारिशल मी इनुकैं माफ करनू। मी उनुकैं नांश
नि करूल। लेकिन मी कसम खैबेर कूनू कि ऐल उं उ देश मिं नि पुजॉल,
किलैकि उनुल म्यर चमतकारों कैं देखिबेर जो मील मिस देश और रेगिस्तान
मिं उनर दगाड़ करी, उनुमि भरौस नि कर। और फिर लै म्यर कौय नि मान,
और बार-बार मिकैं अजमूनै रई। यैक लिजी, जनुल लै म्यर अपमान करौ,
उं क्वे लै उ देश कैं नि देखि पाओ। लेकिन मी आपण सेवक यहोशू और
कालेब कैं, जो मि पर भरौस धरनी, मी उनुकैं उ देश मिं लिबेर जूल। और
उनार वंशज उ देश कैं जितबेर वां बस जॉल। लेकिन भोव तुम यांबे लौटिबेर
रेगिस्तान मिं न्है जाया।"

तब परमेश्वरल मोशेश और हारून थैं इसायलियों कैं यौ बतूणक लिजी
कौ, "किलैकि तुमुल मिधैं कच-कचाट करौ, तुमार सब मैंस जनेरि उमर
बीस साल बे जादे छु, उनुमि बे कालेब और यहोशूवक अलावा और क्वे
लै उ देश मिं नि पुजो। किलैकि तुमुल म्यर भरौस नि कर, यैक लिजी तुम
रेगिस्तान मिं मरला। तुमुल यौ लै कौछी कि अगर हम उ देश मिं हम्ल
करूल, तब हमार नॉनतिन गुलाम बणि जॉल। लेकिन तुमर नॉनतिनों कैं मी
तुमर बदाव मिं उ देश मिं पुजूल। तुमुल उ देशक भेद लिण मिं चालीस दिन
लगाई, और ऐल मी एक दिन कैं एक सालक बारबर बणै द्यूल। यैक लिजी
वां पुजण हबेर पैली, चालीस साल तलक तुमार नॉनतिन लै यौ रेगिस्तान मिं
भटकनै रौल, और तुमर पापोंक सजा भुगतॉल। और उ बखत तलक तुम
सब मरि जॉला।"

परमेश्वरक यौ सब कूणक बाद, उं भेद लिणिवॉल, जनुल उ देशक
बारि मिं गलत बात बतै और दुसौर इसायली मैंसों कैं लै मोशेशक खिलाफ
भड़कांछी, उं सब प्रभुक जरियल देर्ई बिमारील मारी गेर्ई। लेकिन भेद
लिणिवॉल यहोशू और कालेब ज्यून रई, किलैकि उनुल परमेश्वर मिं भरौस
धरौ।

इस्मायली हारनी

(गिनती १४: ३६-४५)

जब मोशेशल परमेश्वरकि सब बात इस्मायली मैंसों कैं बताई, तब उनुल भौत जादे शोक मना। और राति उठिबेर उं कूण लागीं, "हमुल परमेश्वरक खिलाफ पाप करौ, लेकिन ऐल हम उ देश मिं हम्ल करणक लिजी तैय्यार छूं!"

पर मोशेशल उनुधैं कौ, "तुम आपण पापोंक कारणल वां नि जै सकला। तुम प्रभुक यौ हुकुम किलै नि मानणया? तुमेरि यौ हम्ल करणैकि कोशिश बेकार छु। अगर तुम यस करला, तुमर दुश्मण तुमुकैं जरूड़ हैर द्याल, किलैकि प्रभु तुमर दगाड़ न्हैतिन।"

लेकिन फिर लै उनुल जैबेर कनान देशक एक हिस्स मिं हम्ल करणकि जिद्द करी। तब उ जॉग मिं रुणिवॉल मैंसोंल उनुकैं हरै दे, और जो बचीं, उनुकैं भजै दे।

मोशेशक पाप

(गिनती २०: १-१२)

तब रेगिस्तान मिं भटकनै-भटकनै इस्मायलियोंल एक जॉग मिं पुजिबेर आपण तम्बू लगाई।

वां इस्मायलियों कैं पिणक लिजी कैं पाणि नि मिल। तब उं मोशेश और हारून थैं झगड़ करिबेर कूण लागीं, "काश हम उ बखतै खतम है जॉन, जभत हमार भै नांश हई! तुम हमुकैं और हमार जानवरों कैं यां मरणक लिजी किलै लांछा? तुम हमुकैं मिस्र देश बे निकालिबेर यैसि बेकार जॉग मिं किलै लैराछा? यां अन्न, तिमुल, अंगूर, अनार के लै न्हैतिन। और यां तलक पाणि लै न्हैं!"

तब मोशेश और हारून इस्मायलियोंक सामण बे परमेश्वरक तम्बूक देइ मिं जैबेर चौड़ हई। तब वां प्रभु परमेश्वरल उनुकैं आपण महिमा दिखै। और प्रभु परमेश्वरल मोशेश थैं कौ, "हारून और जांठ कैं लिबेर पुर इस्मायलियों कैं जॉम कर और उनरै सामण उ पखाण कैं हुकुम दे, कि तु हम सबों कैं पाणि दिये। इसिक तु उनर लिजी उ पखाण बे पाणि भ्यार निकालये। तब सबै इस्मायलियों और उनर जानवरोंक लिजी पाणि-पाणि है जॉल।"

तब मोशेशल जांठ वांबे उठै ले। और इस्सायलियों कैं पखाणक सामण ठॉड़ करिबेर मोशेशल उनुधैं कौ, "अरे झागडुओ, के हम यौ पखाण बे तुमर लिजी पाणि निकालूं?"

तब मोशेशल आपण हातल जांठल द्वी बार यौ पखाण मिं मारै। और पखाण बे पाणि भ्यार निकलण लागौ। तब इस्सायलियों और उनार जानवरोंल पाणि प्यौ।

लेकिन मोशेश और हारूनल परमेश्वरक हुकुमक जस नि कर। यैक लिजी प्रभु परमेश्वरल उनुधैं कौ, "तुमुल लै मि पर भरौस नि कर, और इस्सायलियोंक सामण म्यर अनादर करौ। मील कै रॉखछी कि तुम सिरफ पखाण कै हुकुम दिया, लेकिन तुमुल तमाश करिबेर यकैं जांठल मारै। यैल मैंसों कै लागौ कि तुमुल आपण ताकतल यौ काम करै। यैक लिजी यौ तमाशक कारण तुम इस्सायलियों कैं उ देश मिं नि पुजै सकला, जो मी इनुकैं दिणिवाँल छूं।"

पितवक स्याप

(गिनती २१:४-६)

वीक बाद उं वांबे निकलि ग्याय, और थ्वाड़ सालक बाद मैंसोंल फिर परमेश्वर धैं कच-कचाट शुरु करि दे। उनुल मोशेश धैं कौ, "के तुम हमुकैं मिस्र देश बे निकालिबेर यौ रेगिस्तान मिं मारणक लिजी ल्याछा? न तो यां पाणि छु, और न र्खट, और यौ खॉण जो स्वर्ग बे मिलुं, उकैं देखिबेर हम बिछी गोयू!"

तब यौ सुणिबेर प्रभु परमेश्वरल मैंसोंक बीच मिं जहरिल स्याप भेजि देई, जनुल मैंसों कैं डंसि दे। यैल भौत इस्सायली मैंस मरि ग्याय।

यौ देखिबेर मैंसोंल मोशेश धैं कौ, "हमुल कच-कचाट करिबेर परमेश्वर और तुमर खिलाफ पाप करौ! ऑब तुम प्रभु परमेश्वर धैं हमर तरफ बे बिनती करिबेर कै दियो कि उं हमर बीच बे यौं स्यापों कैं दूर करि दियो!" और मोशेशल उनर लिजी प्रभु परमेश्वर धैं बिनती करी। तब प्रभुल मोशेश धैं कौ, "तु एक पितवक स्याप बणैबेर उकैं एक उच्च खंभ मिं लटकै दिए, और जो स्यापॉक डांसी मैंस उकैं चॉल, उं बचि जॉल।"

तब मोशेशल उस्सै करौ। वील पितवक एक स्याप बणैबेर उकैं एक खंभ मिं टकै दे। अगर फिर स्यापक डांसी क्वे लै मैंस उकैं चांछी, तब उ भल है जांछी।

यहोशू इस्मायलियोंक नेता

(व्यवस्थाविवरण ३१:१-८)

जब इस्मायलियोंल कनान देशक पैल बारि भेद ले वीक चालीस साल पुर हुण पर, जो मैंस बीस साल है जादे उमराँक छी, ऐल तलक उं सब मरि ग्याछी। और उनर नॉनतिन रेगिस्तान मिं भटकनै भटकनै कनान देशक वड़क नजिक दुबार पुर्जी। और उनुल वां यरदन गाड़क फेर मिं आपण तम्बू लगाई।

वां मोशेशल इस्मायलियों धैं कौ, "ऐल मी एक सौ बीस सालक है गोयूं और ऑब मी तुमर नेता नि है सकन। यैक अलावा प्रभु परमेश्वरल मिधैं यस कौ, कि तु यौ यरदन गाड़ कैं पार नि करि सकलै। पर तुमर प्रभु परमेश्वर तुमु हबेर पैली यरदन कैं पार करॉल, और वां रुणी मैंसों कैं नांश करि द्रयल, ताकी तुम उ देश मिं कब्ज करि सको। और प्रभु परमेश्वरल मिधैं यौ लै कौ, कि यहोशू उ मैंस छु, जो म्यर बाद तुमुकैं यरदन पार कनान देश मिं ली जॉल।

तुम धीरज धरो और फिकर नि करो, न वांक मैंसों कैं देखिबेर डरिया। किलैकि तुमर दगाड़ हिटणी प्रभु परमेश्वर छन। उं न तुमुकैं छोड़ॉल और न कभै यकलै रुण द्र्याल।"

तब मोशेशल यहोशू कैं बुलैबेर सब इस्मायलियोंक सामण उधैं कौ, "धीरज धर और फिकर नि कर, किलैकि त्वी यौ मैंसों कैं उ देश मिं ली जालै, जकैं दिणक वैद प्रभु परमेश्वरल तुमर पुरखोंक दगाड़ करि रँखछी। और प्रभु परमेश्वर खुद त्यर दगाड़ अधिल-अधिल जॉल। उं न तुकैं छोड़ॉल और न कभै यकलै रुण द्र्याल। यैक लिजी झन डर और हिम्मत कर।"

मोशेशकि मौत

(व्यवस्थाविवरण ३४:१-१२)

यैक बाद मोशेश मैंसों कैं छोड़िबेर नबो नामक डॉन मिं गो। वां प्रभु परमेश्वरल मोशेश धैं कौ, "पार उ देश छु, जकैं दिणक वैद मील इब्राहीमक वंशजों धैं करि रँखछी। तु तां नि जै सकलै, लेकिन मी तुकैं यौ देश दिखूल।" तब परमेश्वरल वांबे मोशेश कैं पुर कनान देश कैं दिखा।

तब प्रभुक कई वचनक अनुसार मोशेश वैं मरि गोय। प्रभु परमेश्वरल मोशेश कैं दफनै दे, लेकिन यौ बातक पत्त आज तलक कैकणी नहैं कि मोशेशकि कबर कललै छु।

मरण बखत मोशेशक उमर एक सौ बीस सालकि छी, लेकिन तब लै वीक ऑखोंकि जोत और ताकत कम नि छी।

मोशेशक मरणक बाद इस्यायलियोंल वीक लिजी तीस दिन तलक शोक मना।

वीक बाद बे आज तलक इस्यायलियों मिं उ जस और क्वे पैद नि हौय, जैक दगाड़ परमेश्वरल आमण-सामण बात करी हो। उकैं परमेश्वरल मिस्त्र देश मिं रॉजक और सब मिस्त्रियोंक बीच मिं आपण चमतकराक कामों कैं दिखूणक लिजी भेजौ। और यौं सब चमतकारक काम परमेश्वरल इस्यायलियोंक दगाड़ मोशेशक जरियल कर्गं।



मोशेश दूर बे कनान देस देखणौ